

अखंड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज

मंगलवार 28 नवंबर 2023

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को दुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

'राज्य में घूमना मुश्किल कर देंगे' छान को धमकी

मुंबई
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छान भुजबल को धमकी मिली है। दरअसल छान भुजबल ने कहा है कि मराठाओं को आरक्षण देने के लिए गठित की गई शिदि समिति को रद्द कर देना चाहिए। इसे लेकर भुजबल पर मराठा आरक्षण का विरोध करने का आरोप लग रहा है। अब भुजबल को धमकी मिली है। दरअसल एक मराठा संगठन का सदस्य सोमवार को भुजबल की गाड़ी तक पहुंच गया और उसने भुजबल से मराठा आरक्षण का विरोध न करने को कहा। साथ ही उसने धमकी दी कि 'अगर भुजबल ने विरोध बंद नहीं किया तो उनका महाराष्ट्र में घूमना मुश्किल कर देंगे'।

भुजबल को मिली धमकी
दरअसल छान भुजबल पुणे के सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। इसी दौरान सोमवार को स्वराज्य संगठन का सदस्य धनंजय जाधव गेस्ट हाउस में भुजबल की गाड़ी तक पहुंच गया और उसने नारेबाजी की। उसने भुजबल से मराठा आरक्षण का विरोध न करने को कहा और ये भी कहा कि वह भुजबल की गाड़ी तो क्षतिग्रस्त कर सकता है लेकिन ऐसा नहीं करेगा। इसके बाद पुलिस ने धनंजय जाधव को हिरासत में लिया। इस दौरान भुजबल के समर्थकों ने भी नारेबाजी की। पुलिस ने बताया कि घटना के वक्त गाड़ी में कोई नहीं था और वह गेस्ट हाउस में पार्क थी।

फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर आरक्षण लेने की कोशिश का आरोप
बता दें कि छान भुजबल महाराष्ट्र के एक प्रमुख ओबीसी नेता हैं और उन पर मराठा आंदोलन का विरोध करने का आरोप लग रहा है। साथ ही उन्होंने मराठा आंदोलन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे मनेज जारंगे पर भी निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री छान भुजबल ने सोमवार को कहा है कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए गठित की गई शिदि समिति को रद्द करने की मांग की है। हालांकि शिदि ने कहा कि वह मराठाओं को अलग आरक्षण देने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन जिस तरह से खुंबी सर्टिफिकेट लेने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा किए जा रहे हैं, वह इसके खिलाफ हैं।

22 लाख दीयों से भव्य हुई काशी की दिव्यता

कहीं जगमग दीए तो कहीं पटाखों से रोशन हुआ आसमान

वाराणसी
देव दिवाली के लिए प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर दीया जलाकर विश्वविख्यात काशी की देव दीपावली का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ ज्योति सिंह किया। रंजना उपाध्याय के निर्देशन में गणेश वंदना प्रस्तुत किया। स्कूली बच्चों द्वारा सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया। सुरक्षा के लिए मंडुवाडीह थानाध्यक्ष विमल मिश्रा के अलावा महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रही। सूर्य सरोवर बरेका पर छठ समिति के तरफ से देव दीपावली का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया गया। यहां पर बरेकाकर्मियों की तरफ से लगभग 10 हजार दिप जलाये गए। जिसमें बरेका परिवार के साथ ही आसपास के लोगों ने बड़ चढ़कर हिस्सा लिया। देव दीपावली महोत्सव के अवसर पर 51 हजार दीपों से सुसज्जित जगमग घाट पर देव आराधना के साथ आसमानी अतिशबाजी का आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत मशहूर गीतकारों द्वारा गीत, गजल, भजन, पारम्परिक गीत प्रस्तुती के साथ भक्ति एवं प्रादेशिक गीतों पर आधारित सामूहिक नृत्य व नृत्यनाटिका का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एमएलसी हंशराज विश्वकर्मा, जिला पंचायत



यूपी की जमीं पर विदेशी मेहमानों का भव्य स्वागत

सांस्कृतिक कार्यक्रम का उदाया लुत्फ, सीएम संग खिचवाई फोटो

योगी के यूपी में मिले सम्मान से अभिभूत हुए विदेशी मेहमान

वाराणसी

देव दीपावली पर काशी पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों का भारत के एयरपोर्ट पहुंचने पर टीका लगाकर अंगवस्त्र भेंट किया गया। उत्तर प्रदेश की माटी पर हुए इस स्वागत से विदेशी मेहमान अभिभूत दिखे।



उत्तर प्रदेश में सोमवार को विदेशी मेहमानों का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। 70 देशों के राजदूत व 150 विदेशी डेलीगेट्स के एयरपोर्ट पहुंचने पर टीका लगाकर अंगवस्त्र भेंट किया गया। उत्तर प्रदेश की माटी पर हुए इस स्वागत से विदेशी मेहमान अभिभूत दिखे।

वहीं नमो घाट पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच उनका दिव्य स्वागत किया गया। विदेशी मेहमानों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी खूब लुत्फ उठाया। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ पाकर प्रसन्न मेहमानों ने उनके संग फोटो भी खिंचवाई।

मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री का भी किया गया स्वागत
वहीं एयरपोर्ट और नमो घाट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भव्य स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, सांसद मछलीशहर बोपी सरोज, महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मोर्या, विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा, जिलाधिकारी एस राजलिंगम आदि ने स्वागत किया।



सीएम योगी ने झुकाए बाबा के दर पर शीश

लखनऊ

मुख्यमंत्री व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ सोमवार को देव दीपावली पर तीनों लोक से न्यारी काशी पहुंचे। गंगा घाट से प्रवेश करके गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंच कर बाबा के चरणों में शीश झुकाया। यहां उन्होंने विधि विधान से दर्शन-पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट से सीधे नमोघाट पहुंचे थे। यहां से बजड़ा पर सवार होकर जलमार्ग से श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। सीएम ने सोमवार को

बाबा काशी विश्वनाथ से सुखी व समृद्ध उत्तर प्रदेश की प्रार्थना की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धाम में दर्शन-पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। दर्शन-पूजन के दौरान मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर, जयवीर सिंह, रवींद्र जायसवाल, विधायक सौरभ श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। इसके पहले सीएम ने श्रावण मास में भी तीन बार श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर व काल भैरव मंदिर में पूजन-अर्चन किया था।

अंतिम दौर में पुरानी पेंशन की लड़ाई, हड़ताल का नोटिस देने की तैयारी

नई दिल्ली
'पुरानी पेंशन बहाली' की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार, कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है, तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी, अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में हैं, यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में दो बड़े विभाग, रेलवे और रक्षा विभाग (सिविल) में स्ट्राइक बैलेट यानी मतदान कराया गया था। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्ट्राफ साइड की राष्ट्रीय परिषद 'जेसीएम' के सचिव



शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96 फीसदी कर्मचारी ओपीएस लागू करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग (सिविल) के चार लाख कर्मियों में से 97 फीसदी कर्मी, हड़ताल के पक्ष में हैं। यह मतदान पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ है। कर्मियों ने बिना किसी दबाव के अपना मत डाला है। अब ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा की जाएगी।

से 97 फीसदी कर्मी, हड़ताल के पक्ष में हैं। यह मतदान पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ है। कर्मियों ने बिना किसी दबाव के अपना मत डाला है। अब ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा की जाएगी।

बीजेपी जीती तो तेलंगाना में पिछड़ी जाति से होगा मुख्यमंत्री: अमित शाह

हैदराबाद

तेलंगाना के हजुरबाद में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीआरएस सरकार (केसीआर की सरकार) पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि केसीआर की सरकार को लेकर जनता के बीच गुस्सा का माहौल है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि तेलंगाना की जनता के चंद्रशेखर राव को दोबारा राज्य की सत्ता में नहीं देखना चाहती है। रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'यदि भाजपा राज्य की सत्ता में आती है तो



मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से बनेगा। लेकिन अगर जनता ने बीआरएस या काग्रेस को वोट देती है, तो मुख्यमंत्री केवल एक विशेष परिवार से ही बनेगा।' उन्होंने भीड़ से पूछ, '30 नवंबर को केसीआर की

सरकार बदलेगी या नहीं? पिछड़े जाति के सदस्य को मुख्यमंत्री बना चाहिए या नहीं?' बता दें कि पीएम मोदी से लेकर भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी कहा कि भाजपा के आने

से राज्य का मुख्यमंत्री पिछड़ी जाति से ही बनेगा। काग्रेस और केसीआर सरकार को निशाने पर लेते हुए अमित शाह ने कहा, 'काग्रेस और केसीआर के बीच में मैच फिक्सिंग हुआ है। अगर काग्रेस को वोट दिया तो वो केसीआर को यहां का मुख्यमंत्री बनाएंगे और केसीआर राहुल गांधी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन मैं केसीआर को कहने आया हूँ कि यहां उनकी सरकार नहीं बन रही है और ऊपर राहुल गांधी के लिए जगह नहीं है क्योंकि फिर से नरेंद्र मोदी पीएम बनने वाले हैं।'

'देश की सीमाओं तक सीमित नहीं न्याय तक पहुंच की चुनौतियां'



नई दिल्ली
न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की चुनौतियां आपस में जुड़ी दुनिया में सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) सामूहिक ज्ञान का लाभ उठा सकता है। सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकता है और एक साथ आकर भौगोलिक सीमाओं से परे अभिनव समाधानों की तलाश कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके कोल ने यह बात कही। न्यायमूर्ति कोल ने कानूनी सहायता तक पहुंच पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएलएसए) द्वारा आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि न्याय की तलाश में कानूनी सहायता के महत्व को

नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह निष्पक्षता, समानता और कानून के शासन के सिद्धांतों को बनाए रखने वाली आधारशिला है। उन्होंने कहा, 'एक ऐसी दुनिया में जो आपस में जुड़ी हुई है, उसमें न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में हमारे सामने आने वाली चुनौतियां सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। एक साथ आकर हम सामूहिक ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा कर सकते हैं और भौगोलिक सीमाओं को पार करने वाले अभिनव समाधानों का पता लगा सकते हैं। मेरा भरोसा है कि हमें अपने लोगों को समझने और उनका बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने कार्यों और दृष्टिकोणों को विकसित करना चाहिए।'

चुनाव: एमपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एक्शन में कांग्रेस

नई दिल्ली
मध्यप्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पार्टी ने मतगणना के दिन के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एमपी की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से मतगणना एजेंट्स की विशेष ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। 27 नवंबर से 30 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालय संगठन में विधानसभा क्षेत्रवार मतगणना एजेंट्स की ट्रेनिंग होगी। इसके लिए सभी एजेंट्स को जानकारी दे दी गई



है। सभी 90 विधानसभा के एजेंट्स को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग में मतगणना के दौरान कैसे निगरानी रखनी है, कैसे मशीनवार वोटिंग के नंबर लिखने हैं, कैसे

मशीन और गिने गए मतों का मिलान करना है, यह सब सिखाया जाएगा। जानकारी के अनुसार, 27 नवंबर को कोंडागांव, जगदलपुर, बेमेतरा, तुरंग शहर, सारंगढ़, रायगढ़

और मनेंद्रगढ़ में ट्रेनिंग होगी। 28 नवंबर को देवाड़ा, राजनांदगांव, मरवाही और कुनुकुरी में यह कार्यक्रम रखा गया है। 29 नवंबर को कांकेर और अंबिकापुर जिले के अभिकर्ताओं की ट्रेनिंग होगी है। 30 नवंबर को बालोद, राजिम, महासमुंद, भिलाई 3, रायपुर, जांजगीर-चांपा, सक्ती, बिलासपुर, कवर्धा, कोरवा और प्रतापपुर में ट्रेनिंग होगी। केवल धमतरी ऐसा जिला है, जहां 2 दिसंबर को ट्रेनिंग होगी।

शीर्ष अदालत ने लंपी रोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर जताया संतोष

नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने मवेशियों में गांठदार (लंपी) त्वचा रोग से जुड़े मुद्दों को उठाने वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर सोमवार को कार्यवाही बंद कर दी। शीर्ष अदालत ने गायों और अन्य जानवरों के टीकाकरण और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों का भी जिक्र किया। लंपी त्वचा रोग एक वायरल संक्रमण है जो मवेशियों को प्रभावित करता है। इसके शुरूआती लक्षण में पशुओं को बुखार हो जाना, त्वचा पर गांठ पड़ जाना शामिल है। इस रोग से मवेशियों की जान भी जा सकती है। यह रोग मच्छरों, मक्खियों, जूं और ततैयों के मवेशियों के साथ सीधे संपर्क में आने और दूषित भोजन-पानी से जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष जताया और कहा कि इन कार्यवाहियों को फिलहाल बंद किया जा सकता है।

करता है। इसके शुरूआती लक्षण में पशुओं को बुखार हो जाना, त्वचा पर गांठ पड़ जाना शामिल है। इस रोग से मवेशियों की जान भी जा सकती है। यह रोग मच्छरों, मक्खियों, जूं और ततैयों के मवेशियों के साथ सीधे संपर्क में आने और दूषित भोजन-पानी से जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों पर संतोष जताया और कहा कि इन कार्यवाहियों को फिलहाल बंद किया जा सकता है।

स्वदेशी लड़ाकू विमान उत्पादन बढ़ाने पर विचार, नासिक में तीसरी लाइन'

बंगलूरु
भारत में लड़ाकू विमान के विनिर्माण की संभावनाओं पर लगातार मंथन हो रहा है। स्वदेशी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन सीबी अनंतकृष्णन ने बताया कि एचएएल लड़ाकू विमान तैयार करने की क्षमता बढ़ाने पर विचार कर रही है। उन्होंने हाल ही में पीएम मोदी के दौर पर भी प्रतिक्रिया दी। अनंतकृष्णन के अनुसार बंगलूरु में एचएएल के केंद्र का दौरा करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने इंजीनियरों के प्रयासों की सराहना की। हल्के लड़ाकू विमान यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (एलसीए) तेजस में पीएम मोदी की उड़ान पर एचएएल चीफ सीबी अनंतकृष्णन ने कहा, एचएएल ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी प्रेरित करने वाली है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान



एयरोनॉटिक्स में हो रहे कामकाज से पीएम मोदी काफी संतुष्ट और खुश दिखे। अनंतकृष्णन ने कहा कि एचएएल के हैंगर



का दौरा करने के बाद पीएम मोदी ने यहां काम करने वाले इंजीनियरों के प्रयासों की भी जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, जब

प्रधानमंत्री एचएएल के उत्पादों की सराहना करते हैं, तो इससे वास्तव में प्रेरणा मिलती है। एक साल में एचएएल कितने हल्के लड़ाकू विमान तैयार कर सकता है? इस सवाल पर एचएएल के अध्यक्ष ने कहा, वर्तमान पर एचएएल की क्षमता 16 विमान तैयार करने की है। कंपनी अपनी क्षमता को 24 विमान तक बढ़ाना चाहती है। एचएएल प्रमुख ने बताया कि क्षमता बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के नासिक में तीसरी लाइन स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। हर लाइन पर 8 विमानों का उत्पादन किया जाएगा। 2025-26 से उत्पादन शुरू होने का अनुमान है। इसके बाद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक साल में

औसतन 24 विमान तैयार और वितरित करने में सक्षम बन जाएगी। एचएएल प्रमुख अनंतकृष्णन के अनुसार, एचएएल तेजस मार्क 1ए विमान के ऑर्डर को पूरा कर लेगा, उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है। पीएम मोदी के एचएएल युनिट दौर पर अनंतकृष्णन ने बताया कि प्रधानमंत्री को एलसीए मार्क 1ए की निर्माण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया, एचएएल के अधिकारियों ने पीएम मोदी को इस विमान में लगे स्वदेशी इंजन के बारे में भी विस्तार से बताया। एचएएल प्रमुख के अनुसार, प्रधानमंत्री को स्वदेश में डिजाइन किए गए अलग-अलग हेलीकॉप्टर भी दिखाए गए। पीएम मोदी को एएलएच रुद्र का हथियारयुक्त संस्करण भी दिखाया गया।

सिटी आस-पास संदेश

जय श्री राम... हर हर महादेव जयकारा लगाते निकाली कलश यात्रा, पार्थिव शिवलिंग निर्माण का किया श्री गणेश

बारा विधायक ने भगवान श्री राम की मूर्ती का किया अनावरण, 26 उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य शुरू

अखंड भारत संदेश

धूपपुर। बहुप्रतीक्षित अब तक का देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम 11केरोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण और विसर्जन कार्यक्रम का श्री गणेश सोमवार को भव्यता पूर्ण विशाल कलश यात्रा निकालने के साथ ही कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। सर्व प्रथम सुजावन देव स्थित भगवान श्री राम की मूर्ती का अनावरण बारा विधायक डा. वाचस्पति ने किया। इसके बाद धूपपुर के राम लीला मैदान पर कार्यक्रम के अधिष्ठाता स्वामी विश्वेश्वर महाराज जी, श्री राम दास महाराज जी (बापू जी) गुजरात, विनय सिंह राष्ट्रीय मंत्री भानु गुट, बारा विधायक डा वाचस्पति के नेतृत्व में भारी संख्या में श्रद्धालु जय श्री राम, हर हर महादेव की जयकारे लगाते डोजे के भक्ति गीतों पर झूमते नाचते



कलश यात्रा निकाल सुजावन देव मंदिर पहुंची। जहां पर पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कार्यक्रम का श्री गणेश किया। अनावरत एक माह तक चलने वाली भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद और भोजन ग्रहण किया। प्रथम दिन भंडारे का आयोजन

दिनेश केसरवानी ने किया। पार्थिव शिवलिंगों के निर्माण हेतु बनाए गए 26उप केन्द्रों के शामिल अध्यक्षों ने कलश में जल भरकर अपने अपने उपकेन्द्रों में ले जाकर पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण कार्य शुरू किया। प्रथम दिन भंडारे का आयोजन



। हर ओर जय श्री राम, हर हर महादेव गुंजायमान रहा। धूपपुर बाजार से लेकर तीन किलोमीटर दूर सुजावन देव मंदिर कार्य क्रम स्थल तक श्रद्धालुओं का रैला लगा रहा। प्रमुख रूप से आचार्य हरि कृष्ण शुक्ल, जितेंद्र केसरवानी, विमल कुशवाहा,

कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी शिवम द्विवेदी, मीडिया संयोजक ऋषभ द्विवेदी, राम कुमार शर्मा, रमाशंकर तिवारी, शेष मणि द्विवेदी, राजू तिवारी, सहित भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धूपपुर थाना प्रभारी मय फौंस मौजूद रहे।

प्रादेशिक भाला फेक में मऊआइमा की छात्रा रंजना यादव प्रथम



मऊआइमा। लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स कालेज गुरु गोविंद सिंह में प्रादेशिक भाला फेक में मऊआइमा की छात्रा अञ्जलि आ कर क्षेत्र का नाम रोशन की है। मऊआइमा के ग्राम चक्रश्याम स्थित भोलानाथ रामसुख पटेल इंटर कॉलेज की कक्षा बारह की छात्रा रंजना यादव लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 36 मीटर प्रादेशिक भाला फेक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके सबको चौंका दी। बताते हैं कि रंजना यादव कक्षा बारह की छात्रा है तथा ग्राम गहरपुर मलकिया की मूल निवासी हैं। पिता शिवभजन यादव वेदी के इस सराहनीय कदम पर जहां खुश हैं वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य निरेंद्र बहादुर पटेल सहित सभी छात्रों में हर्ष व्यक्त है।

न्यूज झरोखा
सरकार की जनहित योजनाओं को पूरा करने में तेजी लाएं अधिकारी - डा संगम मिश्र

वरिष्ठ भाजपा नेता ने मेजा के कोना भटौली एवं सिडखीडी गांव में किया घर घर जनसंपर्क

मेजा। मैं यमुनापार की जनता का सेवा करने का संकल्प लेकर जनता के बीच आया हूँ। मैं नेता नहीं यमुनापार की जनता का नेता हूँ। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं तथा पार्टी की मंशा पर प्रश्न चिन्ह न लगे इसलिए अधिकारी केंद्र एवं प्रदेश सरकार की चलाई गई योजनाओं को पूरा करने में तेजी लाएं। उक्त उद्गार वरिष्ठ भाजपा नेता व समाजसेवी डा संगम मिश्र ने सोमवार को मेजा विधानसभा के कोना भटौली तथा सिड खिडी गांव में घर घर जनसंपर्क करने के दौरान भाजपा सरकार की उपलब्धियां बताते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हर घर नल योजना पर अधिकारी विशेष रूप से ध्यान दें घर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाने की सरकार की मंशा पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे साथ ही साथ बिजली निर्बाध गति से गांव के गरीब किसानों आसानी से पहुंचे इसके लिए जले हुए ट्रंसफार्मर एवं टूटे तारों को अतिशीघ्र दुरुस्त किया जाय। भाजपा नेता डा संगम मिश्र ने केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार द्वारा जनहित में चलाई गई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए आम जनमानस को बताया कि गरीबों और वंचित लोगों के लिए सरकार द्वारा अनेकों लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो कोरोना काल से अब तक संचालित हैं।



28 नवम्बर से प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय का सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ

मांडा। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए कठोर रुख अपनाते हुए 28 नवम्बर से परीक्षा प्रारम्भ कर दिया है। वहीं पिछले सेमेस्टर की परीक्षा को नकल मुक्त कराने के लिए मान्यता प्राप्त व सरकारी डिग्री कालेजों के साथ ही यूनियर्सिटी में परीक्षा कराया गया था। जिससे नकल माफियाओं द्वारा हाथ पांव मारने के बावजूद भी असफल रहे। लेकिन इस बार परीक्षा में नकल माफियाओं का हौसला बुलन्द नजर आ रहा है। उक्त सेमेस्टर परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं से प्रबन्धतन्त्र द्वारा सुविधा शुल्क के नाम पर जम कर वसूली भी की गई। विश्वविद्यालय के दुलमुलु रेशे से अभिभावकों मे काफी आक्रोश व्याप्त है। उधर आरबीएस महाविद्यालय मेजा में प्रबन्धतन्त्र के द्वारा पहले छात्र- छात्राओं को कम फीस का प्रलोभन देकर अपने दलालों के माध्यम से विद्यालय में प्रवेश दिलाते हैं फिर जब परीक्षा की देने की बारी आती है तो उन्हीं छात्रों से मोटी रकम लेकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हैं। प्रबन्ध तन्त्र द्वारा निर्धारित शुल्क जमा न करने पर उन्हें परीक्षा व प्रवेश पत्र से वंचित कर दिया जाता है।



आरबीएस महाविद्यालय मेजा में सुविधा शुल्क के नाम पर जमकर वसूली

महावीर कैलाश महाविद्यालय कोसड़ा कला मांडा में बनाया गया परीक्षा केन्द्र

लुढ़क रहा तापमान, आने वाले दिनों में सर्दी ढायेगी सितम

बारा। नवंबर का महीना खत्म होने को है लेकिन अब तक लोग सुबह और रात में ही सर्दी महसूस कर रहे थे, लेकिन बीते दो तीन दिनों से मौसम में बदलाव आया है मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है सुबह शाम की सर्दी में थोड़ी सी लापरवाही बीमार कर सकती है। दिन और रात के तापमान में गिरावट लगातार जारी है। रात में पंखे की जरूरत ना के बराबर हो गई है। अब रात के साथ-साथ दिन में भी ठंड बढ़ने लगी है। बीते रविवार को दिन में हल्के बादल छाने से भी ठंड में इजाजा हुआ है। सर्द हवाओं के चलते सुबह से लोग ठिठुरन महसूस करते रहे। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले तीन दिनों में तापमान में और गिरावट हो सकती है कोहरे का असर भी बढ़ने की संभावना है। मौसम में बदलाव से बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ा है सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों में वृद्धि हो रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह से मौसम में अचानक बदलाव हो रहा है उससे इस वर्ष भी तापमान उस स्तर तक पहुंच सकता है बहरहाल ऐसी सर्दी अभी दिसंबर के अंत या जनवरी के प्रारंभ में ही होने का अनुमान है।



बच्चों और बुजुर्गों का रखे ख्याल : डॉ विनोद त्रिपाठी साहित्यी होस्पिटल एंड थिएटर के प्रबंधक डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी ने बातचीत के दौरान कहा की मौसम में अचानक बदलाव का असर संहत पर तेजी से दिख रहा है, सर्दी खांसी के मरीज बढ़ने लगे हैं। सबसे ज्यादा असर बच्चों व बुजुर्गों पर है दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच काफी अंतर होने से दिक्कतें बढ़ रही है। अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे हाल में चिकित्सा लापरवाही भी घातक हो सकती है बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें मंग कपड़ों से उनका शरीर ढकें सिर पर टोपी व पैरों में जूता मोजा पहनाएं, ठंडी चीजें खाने के लिए ना दें।

आश्रम पद्धति कालेज में संविधान दिवस समारोह कार्यक्रम आयोजित
करछना। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज खाई करछना प्रयागराज में संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानाचार्य श्री मल्लेन्द्र नाथ त्रिपाठी एवं समस्त शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमवार अम्बेडकर, गांधी जी एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की औपचारिक रूप से शुरुआत की गयी, संविधान के प्रस्तावना की सपथ प्रधानाचार्य, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्रों ने ली कार्यक्रम की प्रभारी श्रीमती विभा ने संविधान के निर्माण एवं क्रियान्वयन पर प्रकाश डाला , श्री प्रदीप ने संविधान के मूल्य और उपयोगिता के विषय में जानकारी दी इस अवसर पर कक्षा 7 छात्र प्रत्युश तिवारी ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर एक किंवदंती प्रयोगिता आयोजित की गयी जिसमें श्री संदीप तिवारी द्वारा प्रश्न पूछा गया और सभी छात्रों ने प्रतिभा दिया किया निर्णायक श्री अखिलेश मिश्र, विभा और प्रदीप जी रहे किंवदंती प्रयोगिता में कक्षा 10 के छात्र अरुण गौर प्रथम स्थान, कक्षा 7 के छात्र प्रत्युश दूसरे तथा कक्षा 9 के छात्र अनिकेत तीसरे स्थान पर रहे प्रधानाचार्य श्री मल्लेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने छात्रों को पुरस्कृत किया कार्यक्रम का संचालन श्री धर्मेन्द्र सिंह जी ने किया तथा आभार ज्ञापन श्री अबू मोहम्मद शीश ने किया इस अवसर पर श्री अनुराग शर्मा, श्री पंकज, अवधेश श्रीमती उपासना, अंशु जैसवाल, शिल्पा मिश्रा, प्रज्ञा पांडेय एवं समस्त शिक्षक, कर्मचारी व छात्र उपस्थित थे।

डीहा में दशहरा उत्सव में हास्य कवियों ने जमाई महफिल



करछना। क्षेत्र के डीहा गांव में दस दिवसीय रामलीला मंचन के उपरांत भव्य दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान रंगमंच पर पहुंचे हास्य कवि अशोक बेराम ने कई क्रम में अपनी हास्य कविताओं पर श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। उनकी दरोगा भोजी, मोलई के बियाह, नेता औबल नम्बर और बेराम बसन्तनामा जैसी कविताओं को सुन श्रोता दर्शक देर रात तक लोटपोट होते रहे। हास्य कवि के अपने संदेश परक उद्बोधन में रावण के भीतर बसे दुराचार, अत्याचार, असत्य, अनाचार, ईहा, द्वेष रूपी रावण को मारकर दशरथ के सच्चे मायों को जीवन में उतारने के प्रति प्रेरित किया। चर्चित लोकगायक और हास्य कलाकार मोहन लाल यादव के गीतों पर भी श्रोता झूम उठे। प्रसिद्ध चिकित्सक और जिला पंचायत सदस्य विजय बाबू यादव ने असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक दशरथ पर्व के प्रति भगवान राम के चरित्र, आदर्श, लोकप्रियता, समरसता, सदाचार को जीवन में अनुसरण करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने मंचपर कवि कलाकारों का सम्मान करते हुए उन्हें अपनी लोकप्रियता और लोकसंस्कृति का संवाहक बताया। पूर्व प्रधान लल्लन यादव ने मंचपर व्यास समेत अनवरत अभिनय करने वाले सभी कलाकार, पात्रों को मोमेंटो और मेडल देकर सम्मानित किया। दशहरा उत्सव में क्षेत्र के कई जगहों से आई तरह-तरह की दुकानें सजाई गई थीं, जहां पहुंच कर लोगों ने गुडलालेबी, दमालु, पकवान, धरेलू सामान समेत कई चीजों की खरीदारी की। बच्चों ने भी बांसुरी, गुब्बारे, झूले का लुफ्त उठाया। उधर देर रात हनुमान जी, शिवजी, कृष्ण सुदामा सहित कई भव्य झांकियों ने भी खूब समा बांधी इस मौके पर रामसखा यादव मुखिया, तुलसीदास यादव, नागेंद्र सिंह, पिनू यादव, चन्दा तिवारी, नीरज यादव, अंकित यादव, राम अचल समेत कई स्थानीय गणमान्य और बड़ी संख्या में श्रोता दर्शक मौजूद रहे।

जमीनी विवाद को लेकर मार पीट तोड़फोड़, मुकदमा दर्ज
मऊआइमा। जमीनी विवाद को लेकर महिला को उसके घर पर चढ़ कर लाठी डंडा से मारा पीटा गया और गृहस्थी का सामान तोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। महिला ने मऊआइमा थाने में चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। मऊआइमा थाना क्षेत्र के ग्राम गदियानी निवासनीय ऊषा देवी पत्नी दशरथलाल का आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर पड़ोसी उसके घर पर चढ़ कर उसे लाठी डंडा से मारे पीटे और गृहस्थी का सामान तोड़ डाले बोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई। ऊषा देवी ने मऊआइमा थाने में तहरीर दे कर प्रमोद कुमार, पूजा, लालती, बलराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दी है।

बैठक कर कांग्रेसियों ने नवनियुक्तों को दी बधाई


सहस्रो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवराज उपाध्याय की अध्यक्षता में सहस्रो में आयोजित हुई। जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष मिश्रा को कांग्रेस पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राम किशुन पटेल को महासचिव बनाए जाने पर बधाई दी गई। हर्ष व्यक्त करते हुए देवराज उपाध्याय ने कहा कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी और पार्टी को मजबूती मिलेगी। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी गई। मनीष मिश्र एवं राम किशुन पटेल कर्मठ ईमानदार और स्वच्छ छवि के नेता हैं। ए निरंतर किसानों, मजदूरों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इनके चयन से पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। इससे पार्टी का उन्नयन और विकास होगा। बैठक में हलीम अंसारी, अखंड प्रताप सिंह, दिलीप दुबे, अमन मिश्रा, गोविंद सिंह चंदेल, सलीम टाइगर, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद साबिर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

एक्यूप्रेशर संस्थान का राष्ट्रीय एवं प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न

अखंड भारत संदेश

झूंसी। छतनाग स्थित एक्यूप्रेशर संस्थान के पच्चीसवें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन आज दीक्षांत समारोह के रूप में हुआ। इस दौरान नए शोधों को आधार बनाकर प्रो. प्रभात वर्मा ने निदान और उपचार के नए तरीके बताए उन्हीं ग्रहों की स्थिति को एक्यूप्रेशर से जोड़कर उपचार में प्रयोग करने पर क्या परिणाम होता है यह विस्तार से बताया।

रामकुमार शर्मा ने शरीर की तंत्रिका तंत्र के संरचना और उनमें आने वाली व्याधियों के बारे में सूक्ष्म विवेचना करते हुए आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का दृष्टिकोण को विस्तार से बताया। सम्मेलन में आए देश-विदेश के प्रतिभागियों ने अध्यक्ष जेपी अग्रवाल को पगड़ी एवं शाल पहनाकर गुरु दक्षिणा प्रदान किया। निदेशक एके द्विवेदी ने दीक्षांत समारोह में संस्थान की योजनाओं के बारे में बताया। प्राचार्य एके सिंह ने आगामी सत्र से कोरोना काल में रुके कैम्पस कोर्स के आरंभ होने की उम्मीद जताई। एक्यूप्रेशर के साथियों को सम्मानित किया गया। आखिर में प्रतिभागियों, प्रशिक्षुओं को दीक्षित प्रशिक्षित घोषित किया। कार्यक्रम में एस्के गोयल, एसएस सराफ, एमके मिडा, महासचिव एएम कूल, एसपी केसरवानी, उर्वशी



उपाध्याय, अभय त्रिपाठी, अनिल सिंह, अनिल शुक्ला, सुनील, अभय, जया, दीपिका, शिवांगी सहित अर्न्तलाइन ऑफलाइन माध्यम से सैकड़ों लोग जुड़े रहे।

असंख्य दीपों से जगमगा उठे सैकड़ों गांवों के नदी एवं गंगा घाट

नजारा देखने उमड़ा गांव का जन सैलाब, भाजपा नेता योगेश शुक्ल ने भी मदरहा गांव में ग्रामीणों के साथ परिक्रमा कर घाट पर जलाया दीप



अखंड भारत संदेश

मेजा। भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश शुक्ला के नेतृत्व में यमुनापार के टोंस गंगा संगम से टोंस बेलन संगम में मध्य दोनों तटों के सौ से अधिक गाँव में संपन्न हो रहे दीपोत्सव कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान महिलाएं, बच्चे अपने परिवार के साथ घाट का नजारा देखने पहुंचे और दीपों को जलाने का कार्य किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश शुक्ला ने स्वयं मदरहा गांव में ग्रामवासियों के साथ मिलकर दिए जलाए। वरिष्ठ भाजपा नेता योगेश शुक्ला ने बताया कि पिछले वर्ष टोंस नदी की परिक्रमा के दौरान जो लोग साथ आए उनसे सभी तटों दिए जलाने के लिए आग्रह किया। जिसके बाद आज सभी ने 100 से ज्यादा तटों पर दिए जलाकर देव दिवाले का उत्सव मनाया। बीते वर्ष देव दीपावली के दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेश शुक्ला टोंस नदी का परिक्रमा यात्रा कर रहे थे। दोनों तटों से परिक्रमा पथ लगभग 150 किलोमीटर का था। योगेश शुक्ल की यह परिक्रमा यात्रा मेजा, कोरांव, बारा और करछना तहसील के लगभग 100 से अधिक गाँवों से होकर गुजरी थी और लगभग 10 दिन में पूरी हुई थी। भाजपा वरिष्ठ नेता योगेश शुक्ला ने इस परिक्रमा यात्रा से टोंस नदी के पर्यावरण के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित किया था।

सतह ही इसके तटों से लगे गांवों में आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास के नये आयाम को जोड़ने का प्रयास किया।

देव दीपावली में संगम तट पर 5500 दीप जलाने का मिला परम सौभाग्य : विजयराज

बारा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दीपावली मनाई जाती है। संगम नगर में देव दीपावली पर्व को दिव्य व भव्य रूप से मनाया गया। इस पर्व के अवसर पर 3 लाख दीपों से संगम व गंगा यमुना के घाट जगमग हुए। भगवान विष्णु का धाम होने की वजह से प्रयागराज में देव दीपावली भव्य रूप में मनाई जाती है। देव दीपावली के साथ ही तट पर लगने वाले एक महीने के कार्तिक मेले का समापन भी हो जाता है। देव दीपावली पर आस्था का सैलाब इस प्रकार उमड़ा की तिल भर पैर रखने की कहीं जगह नहीं बची। प्रशासन ने घाटों को कई सेक्टर में बाँट दिया रामघाट, किला घाट, संगम घाट, दशरथमेघ-घाट , संकट मोचन घाट और नाग बासुकी की मंदिर तक देव दीपावली की रौनक देखते ही बन रही थी।

भव्य और अलौकिक देव दीपावली, रंगोली और लेजर शो ने किया मंत्रमुग्ध



जारी। कौंधियारा ब्लॉक की रंगोली बनी आकर्षक का केंद्र: कौंधियारा ब्लॉक की शिक्षिकाओं द्वारा सुवह से ही खण्ड शिक्षाधिकारी कौंधियारा रमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में रंगोली बनाने का कार्य जारी रखा। प्रत्येक ब्लॉक के शिक्षकों ने रंगोली में किंग प्रतियोगिता में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में विभिन्न ब्लॉकों से विभिन्न विद्यालयों से जुड़ी शिक्षिकाओं ने रंगोली बनाई। इसमें मुख्यतः नारी शक्ति-मिशन शक्ति को दर्शाया गया। अध्यापकों ने पूरे उत्साह के साथ रंगोली में सहभागिता दिखाकर नारी शक्ति को दर्शाया। संगम तट पर कौंधियारा ब्लॉक की रंगोली लोगों को खासा आकर्षित करती रही। हनुमंश कुमार मिश्र, ममता कर्नौजिया, गीता रानी, शालिनी, शिप्रा राव, वृन्दा यादव, रिचा मोहिनी, मनोज देवी, रंभिका कटियार, अंजु खेड़ा, नीतू सेंगर, अनिमेष श्रीवास्तव सहित कई शिक्षक और शिक्षिकाओं ने रंगोली बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया

प्रचलित धर्म मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त किया। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, आज सोमवार के दिन ही भगवान शंकर ने त्रिपरासुर नाम के राक्षस का वध किया था। जिसके खुशियों में सभी देवताओं ने गंगा तट पर दिवाली मनाई थी। वैसा ही नजारा आज संगम तट के किनारे देखने को मिला।



सोमवार का वध किया था। जिसके खुशियों में सभी देवताओं ने गंगा तट पर दिवाली मनाई थी। वैसा ही नजारा आज संगम तट के किनारे देखने को मिला।

दुराचारी और एक ऑनरकिलिंग के वांछित सहित गिरफ्तार भेजे गए जेल

मऊआइमा। विवाहिता के साथ दुष्कर्म के नामजद आरोपी को पुलिस ने जहां जेल भेज दिया वहीं साथ में एक वांछित को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मऊआइमा थाना क्षेत्र के सिसई सिपाह निवासी एक विवाहिता के साथ दुराचार करने वाला आरोपी अब्दुल कय्यूम पुत्र ननकाई ग्राम गजेहडा थाना देल्डपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया वहीं ग्राम किंरांव चौहान का पुत्र निवासी सरदार सिंह पुत्र नागेन्द्र सिंह जिसने अपनी सौतेली बहन 16 वर्ष की गर्भवती थी। ऑनरकिलिंग में 8 नवम्बर 2021 को आत्महत्या के लिए उकसा कर शव छिपा दिया था। तब से फरार चल रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।



तिसेनतुला पुर में पशु आरोग्य मेले का आयोजन सम्पन्न,
1520 पशुओं का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया गया

मांडा। क्षेत्र के तिसेनतुला पुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर एक दिवसीय विकास खण्ड स्तरीय मेले का आयोजन किया गया। सोमवार को तुलसी मां की पूजा (पूर्णावसी) मास के शुभ अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दिवसीय विकास खण्ड स्तरीय पशु आरोग्य मेले का शुभारम्भ पशु चिकित्साधिकारी डॉ प्रदीप कुमार मिश्र व भाजपा नेता रमा शंकर शुक्ल ने फीता काट कर किया और गावों का माल्यार्पण एवं प्रज्ज्वलित कर गावों को दूध की गंगा बलाया। मां के दूध के बाद गाव का ही दूध पवित्र, लाभदायक माना जाता है। जिसमे कुल 1520 पशुओं का स्वस्थ प्रशिक्षण करके नि: शुल्क दवा का वितरण किया गया। मेले में कमल कुमार त्रिपाठी, टी एन शुक्ल, जय शंकर पाल, महेंद्र पाल, मनोज कुमार पाठ, रोहित सोनकर, शिरिस दुबे, एंड्रुलेस स्टीफन में सुभाष कुमार यादव, सुजीत कुमार सिन्हा फर्माशिह आदि के अलावा प्रधान प्रतिनिधि बहुगुणा शुक्ल, राम कृष्ण मिश्र , मांडवी शरण द्विवेदी मौजूद रहे। वहीं पशु चिकित्सक ने बताया कि 29 नवम्बर को हाटा में मेले का आयोजन किया गया है।



अमन चैन में अहम किरदार पुलिस और राजस्व विभाग का

कोरांव। देश हो या प्रदेश या फिर जिला और गांव गिराव हर जगह अमन चैन में गिरावट आ रही है। सरकार और जनके नुमाइंदे जनता के बीच यही कहते हैं कि छोटी बड़ी कोई भी शिकायत हो या घटना हो त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए वना किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दिख रहा उल्टा। और चर्चा यह भी है कि अफसरान यह भी ज्यादा कहते हैं कि मुकद्दमों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। दरअसल ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर भूमि विवाद के मामले हैं। शहरो में मकान प्लॉट आदि के मामले यदि राजस्व विभाग के अधिकारी नहीं और गुणवत्ता परक न्याय कर दें तो सही न्याय जोख की रिपोर्ट दें तो निष्पक्ष ही भू विवाद कम हो जायेंगे। पुलिस विभाग यदि थानों पर लगाम कसे तो छोटी हो या बड़ी घटना को यदि पीठित कार्यवाही चाहता है तो उसे न्याय जरूर मिले। उसकी रपट लिखी जाए अपराध कम होंगे। पुलिस गंभीर केस को एनसीआर को एफआईआर तो कहीं एक पक्ष से मिली भगत हुई तो किसी से दोनो पक्षों को डील करती है तभी जनन्य अपराध बढ़ें हैं। जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारियों या डीएम कमिश्नर के यहां देखा जाए तो प्रतिदिन प्रत्येक तहसील और थानों की यही शिकायतें मिलती हैं कि लेखपाल ने गलत नाप की तो किसी ने पैसा ले कर भी काम नहीं किया तो किसी ने एएसडीएम और तहसीलदार कानूनमो नायब आदि की शिकायतें ले कर तो थाने के दुरोग ने रपट नहीं लिखा आदि शिकायतें होती हैं। किंतु अधिकारी और सकार रैसी कार्यवाहियों पर सतर्क हटि नहीं डाल रही जिससे अपराध बढ़ रहे हैं। यह तरीका कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए तनिक भी शुभ नहीं हो सकता। गांवों की ग्राम समा सरकार जमीनों से जब तक राज्य सरकार टीम गठित कर भू माफियाओं का कब्जा नहीं हटाता और जब तक आवंटियों को कब्जा दखल नहीं दिलाया जा सकता, थाना पुलिस में दलाली बंद नहीं होगी, शिकायतों को न्याय नहीं मिलेगा, तो कानून व्यवस्था मजक बन कर रह जायेगा। सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे नहीं मुक्त होंगे तो फौजवारी के मामले बढ़ते रहेंगे। वर्तुमान में देखा जाए तो सैकड़ों हजारों बीघा ग्राम समाज की जमीनें भू माफियाओं के कब्जे में हैं गरीब भूमि हीन पात्रों को आवंटित नहीं किया जा रहा, जिससे करोड़ों अरबों की जमीनें सरहान कारचकारों ने कब्जा कर फसल उगा कर लाभ अर्जित कर रहे हैं। किंतु ग्राम पंचायतों से लेकर तुम गुन परीब पात्रों ने मांग किया की उक्त जमीनें खाली कराई जाए गरीबों को आवंटित किया जाए किंतु कोई अमल नहीं किया जा रहा है।

देव दीपावली का भव्य एवं दिव्य रूप...


दीप मालिकाओं की अद्भुत छटा से जगमग हुआ संगम क्षेत्र



अखंड भारत संदेश



देव दीपावली पर दीपक जलाकर स्वच्छता का दिया संदेश



प्रयागराज। नगर निगम प्रयागराज के नगर आयुक्त के निर्देश में नगर निगम द्वारा अरैल घाट पर देव दीपावली के अवसर पर दीपक जला के स्वच्छता का संदेश दिया गया जिसमें बड़ी संख्या में जनसभागिता के साथ लोग जुड़े और दीपक जलाने में भी सहयोग किया गया। इस मौके पे अपर नगर आयुक्त अरविंद राव, सहायक नगर आयुक्त दीप शिखा पांडेय, मण्डल कार्यक्रम प्रबंधक स्वच्छभारत मिशन - महेश पांडेय एवं जूनल ऑफिसर और नगर निगम की सफाई मित्रों के द्वारा इस कार्य को पूर्ण किया गया।

अरैल में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया



नैनी। नैनी अरैल में सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में नैनी अरैल के नए पक्के घाट के गंगा तट पर कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व वृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। सभी पदाधिकारी ने बड़े चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम अधिकारी धीरज यादव ने कहा कि हमारा सरस्वती परिवार विगत 7 वर्षों से स्वच्छता अभियान निरंतर गंगा तटों पर, मंदिरों पर चला रहा है, जिससे हम और हमारा जिला व प्रदेश स्वच्छ एवं साफ सुथरा रहे। डॉ. एस बी यादव ने कहा कि लोग गंगा तट पर, मंदिरों में स्वच्छता का परिचय दें, जिससे हम और हमारा जिला व प्रदेश स्वच्छ एवं साफ सुथरा रहे। वहीं पर अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि हम अकेले कब तक स्वच्छता अभियान चलाते रहेंगे। जब तक हमारे समाज में एक एक घर से लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तो गंगा को बस हम नदी मानकर गंदा ही करते रहेंगे। कार्यक्रम में कुंवर जी तिवारी, सहदेव चौरसिया, सुनील कुशवाहा, बबुवाहन सिंह, प्रवीण तिवारी, शुभेंद्र चौध, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, आत्म प्रकाश यादव, संदीप कुमार सिंह, विनोद गुरानी, सुधीर मिश्रा, संदीप केसरवानी, उज्जवल यादव, सनी यादव, सौरभ यादव, गौरव यादव, कुंवर अलख प्रताप सिंह, पवन कुशवाहा आदि उपस्थित रहे।

देव दीपावली पर संगम में बही भजनों की गंगा

प्रयागराज। जिला प्रशासन एवं प्रयागराज मेला प्राधिकरण के द्वारा कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सोमवार को संगम क्षेत्र में देव दीपावली के पावन पर्व का भव्य एवं दिव्य रूप से आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ अतिथिगणों द्वारा दीप विन्यास का अवलोकन एवं सेल्फी प्वाइंट पर फोटोग्राफी द्वारा किया गया। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के द्वारा सभी माननीय अतिथियों का अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। देव दीपावली के अवसर पर सैंडआर्ट, गंगा आरती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लेजर शो, आतिशबाजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देव दीपावली के अवसर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री ए०के० गुप्ता, सांसद इलाहाबाद प्र०0 रीता बहुगुणा जोशी, सांसद फूलपुर श्रीमती केशरी देवी पटेल, व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां त्रिवेणी की भव्य रूप से आरती की गयी एवं दीप दान किया गया। देव दीपावली पर्व को सफुल्ल सम्पन्न कराने के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय की गयी थी, उसी के अनुरूप विभागों के द्वारा व्यवस्थायें की गयी थी। कार्यक्रम स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया था। श्रद्धालुओं के लिए प्रकाश एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की सुव्यवस्था की गयी थी। इस अवसर पर काफी संख्या में आमजन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ० रंजना त्रिपाठी व डॉ० प्रभाकर त्रिपाठी ने किया।



प्रयागराज। संगम महाआरती जिला प्रशासन के मंच पे मुंबई से आए सुप्रसिद्ध भजन गायक सूर्य प्रकाश दुबे एवं साथियों ने खूब रंग जमाया, भव्य एक शाम, राम के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें मुंबई से आए सुप्रसिद्ध भजन गायक टी टी-सीरीज गायक गायक सूर्य प्रकाश दुबे एवम साथियों ने खूब रंग जमाया, सुर्वा जी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी जैसे राम कहानी सुनो राम कहानी, सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए है। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, लोगों ने खूब आनंद लिया उनके साथ सिंगर पूजा छबड़ा जी ने भी अच्छी प्रस्तुति दी। पूरे राधे राधे ग्रुप ने मानो प्रयागराज संगम पे आनंद विभोर कर दिया कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रयागराज शहर के मेयर गणेश केसरवानी जी की उपस्थिति रही। उन्होंने सुर्वा जी का सम्मान किया और दीपोत्सव की बधाई दी, साथ में आयोजक मण्डल प्रदीप पांडे जय त्रिवेणी जय प्रयाग का उद्घोष हुआ, और सभी ने मिलकर महाआरती की।

देव दीपावली पर जगमग हुआ छतनाग घाट

झूंसी। उल्टा किला के पास झूंसी छतनाग घाट पर देव दीपावली के अवसर पर सोमवार की शाम दीप जले तो जगमग रोशनी की छटा देख लोग मंत्रमुग्ध हो गए। युवाओं ने मिट्टी के दीप से ओंम के साथ कई आकृतियां बनाईं और जमकर आतिशबाजी की गई। इस दौरान उपस्थित महिलाएं युवतियां जल रहे दीप के साथ सलफी लीं। बेनी माधव, कंचन, अंगद यादव, प्रीतम सिंह, गणेश निषाद, रजत, अमित, अश्वनी, मुलायम, दीपक, शिखर, गोरे लाल आदि घाट पर व्यवस्था में लगे रहे।



संगम में 7 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

प्रयागराज। संगम समेत प्रयागराज के तमाम घाटों पर सोमवार को आस्था की डुबकी करीब 7 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान का डुबकी लगाई। सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्तिकेय की पूजा और स्नान से होती है मनोकामना पूरी। मान्यताओं के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा के ही दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। जबकि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने आज ही के दिन मत्स्यावतार रूप धारण किया था। इस कारण कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और पूजा अर्चना करने वाले को अक्षय पुण्य और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। इसी वजह से संगम नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी की धारा और अयोध्या में सरयू घाट पर स्नान करने वालों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के आखिरी स्नान पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा और यमुना नदियों में स्नान से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मौके पर गंगा और यमुना नदियों में श्रद्धालु दीपदान भी करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर ही देव दीवाली का भी पर्व मनाया जाता है। यहां आने वाले श्रद्धालु स्नान और पूजा-अर्चना के साथ ही दान-पुण्य भी कर रहे हैं।

अरैल में लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी

नैनी। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किए गए स्नान से पूरे वर्ष भर गंगा स्नान करने के समान फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना या अन्य नदियों में स्नान करने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है। इस दिन स्नान के बाद दान पुण्य करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। अरैल कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में भक्तों ने संगम सहित गंगा और यमुना में आस्था के साथ पुण्य की डुबकी लगाई। स्नान के बाद दान और पुण्य अर्जित किया। घाट पर स्नान का सिलसिला भोर से ही शुरू रहा। संगम पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। इसके बाद दीपदान किया। घाट पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। घाट पर पुलिस बल के साथ महिला पुलिसकर्मीयों की भी तैनाती की गई थी। संगम सहित बलुआ घाट, काशीराज घाट, नामवायुकि, रामघाट, काली घाट, सरस्वती घाट, किला घाट, वीआईपी घाट, महावीर घाट सहित गंगापर के श्रृंगवेपुर, फाफामऊ, नवाबगंज, झूंसी के अलावा यमुना पर के नैनी, अरैल आदि घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। स्नान के बाद श्री बड़े हनुमानजी का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर में भंडारे के साथ ही सुंदरकांड और अनुष्ठान का आयोजन किया गया।

रोडवेज की एसी बस में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर



प्रयागराज। सिविल लाइंस बस स्टैंड से लखनऊ के लिए जा रही शताब्दी बस में आज सोमवार को आग लग गई। करीब 60 यात्री बस में सवार थे। बस चालक जब तक कुछ समझ पाता तब तक बस जलने लगी। बस में महिलाओं और बच्चों भी शामिल थे। कुछ लोग शीशा तोड़कर बस से बाहर कूद गए तो कुछ सामान छोड़कर बस से बाहर निकलकर जान बचाने में सफल रहे। अस्पताल गेट पर चाय पान के दुकानदार खुला छोड़कर वहां से भाग गए वहाद हादसा सिविल लाइंस बस स्टैंड से करीब 3 किलोमीटर दूर स्टैनली रोड पर तेज बहादुर सपू (बेली) अस्पताल के गेट पर हुआ। करीब आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो किसी तरह आग पर काबू पाया गया। बस पूरी तरह से जलकर राख हो गई।

रोने लगी महिला यात्री, बच गई जान

लखनऊ के लिए सवार हुई एक महिला अपने परिवार को फोन कर इसकी सूचना दे रही थी। रोकर वह बता रही थी कि किसी तरह से वह बस से उतर पाई, किसी तरह से उसकी जान बची है। घटना करीब पांच बजे की है। आलमबाग डिपो की शताब्दी एसी सेवा की बस आज यात्रियों को बैठाकर लखनऊ के लिए रवाना हुई थी। कंडक्टर यात्रियों का टिकट बना रहा था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस उसे एसआरएन अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक पर उसके साथ सवार दो दोस्त भी घायल हो गए हैं। आशीष की मौके के पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस उसे एसआरएन अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक पर उसके साथ सवार दो दोस्त भी घायल हो गए हैं। जिनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी होने पर परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। आशीष की मौत से परिजन बर्दहास दिखे।

डिवाइडर से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत

प्रयागराज। सिविल लाइंस इलाके में देर रात तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बाइक पर सवार उसके दो दोस्त घायल हो गए हैं। उसे तत्काल एसआरएन अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। आननफानन परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। कोतवाली इलाके के रानीमंडी निवासी आशीष सोनी (19) की अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में शिरकत करने गया था। देर रात वह अपने दो अन्य दोस्तों के साथ घर लौट रहा था। सिविल लाइंस इलाके के कानपुर रोड पर आटो सेल्स चौराहे के पास तेज रफ्तार बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में आशीष की मौके के पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस उसे एसआरएन अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाइक पर उसके साथ सवार दो दोस्त भी घायल हो गए हैं। जिनका उपचार चल रहा है। घटना की जानकारी होने पर परिवार के लोग अस्पताल पहुंच गए। आशीष की मौत से परिजन बर्दहास दिखे।

मेजा ऊर्जा निगम को सामुदायिक कार्यों के लिए पी आर एस आई ने दिया अवार्ड

आस पास के समुदायों के उत्थान के लिए निगम हमेशा रहा तत्पर - सुनील कुमार

मेजा। बीते 25 से 27 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस फेरिटवल कार्यक्रम के दौरान मेजा ऊर्जा निगम को सामुदायिक विकास कार्यों के लिए एवं मीडिया में उनके अच्छे प्रचार प्रसार के लिए पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी आफ इंडिया द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसके उपलक्ष्य में निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार ने वधाई देते हुए कहा कि निगम आस पास के समुदायों के उत्थान के लिए हमेशा ही तत्पर रहा है। उल्लेखनीय है कि मेजा ऊर्जा निगम वेस्ट पी एस यू इन्फ्रीमेटिंग सी एस आर कैटेगरी के तहत रेल टेल कांपॉरेशन आफ इंडिया के साथ तीसरा स्थान साझा किया पी ए एस यू कैटेगरी में वहीं पहले स्थान पर इंडियन आयल कांपॉरेशन आफ इंडिया तथा दूसरे स्थान पर एन एल पी इंडिया (चेनई) रहा। मेजा ऊर्जा निगम की सोलर आधारित आरो सिस्टम को विशेष रूप से सराहा गया जिसके लिए निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार ने वधाई दिया है और कहा कि मेजा ऊर्जा निगम पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जैव विविधता संरक्षण को भी विशेष ध्यान




देता है। इसी क्रम में मानव संसाधन विभाग अध्यक्ष अखिल के पी पटनायक ने सी एस आर एवं जनसंपर्क कार्यकारियों को वधाई दिया और कहा कि आगे आने वाले समय में कई ऐसी ही उपलब्धियां अपने नाम करें। गौरतलब है कि मेजा ऊर्जा निगम की सामुदायिक विकास पहल से आस पास के लगभग तीस हजार लोग लाभान्वित हुए हैं। कार्यक्रम में तीस से अधिक कंपनियों को अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया। श्री पटनायक ने बताया कि पब्लिक रिलेशंस आफ इंडिया हर वर्ष पूरे भारत वर्ष के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कंपनियों को अलग अलग कैटेगरी में नामिनेशन के लिए आमंत्रित करता है जिसमें हर कैटेगरी में तीन विजेता इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस फेरिटवल के दौरान पुरस्कृत किए जाते हैं। इस मौके पर सुधांशु त्रिवेदी नरेश बंसल तथा दिवानंद महाराज आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

महामना के जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की फिर उठी मांग



प्रयागराज। अखिल भारतीय मालवीय सभा प्रयाग के मीडिया प्रभारी गोपाल जी मालवीय ने बताया। अखिल भारतीय मालवीय सभा प्रयाग के अध्यक्ष अशोक मालवीय के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल सांसद रीता बहुगुणा जोशी से उनके आवास पर मिला एवं उनसे मांग रखी महामना जी के जन्म स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए एवं पर्यटकों के आवागमन हेतु सुंदरीकरण किया जाए तथा कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। अखिल भारतीय मालवीय सभा प्रयाग के पदाधिकारी अशोक मालवीय, गिरी शंकर प्रभाकर (गिरी बाबा), ज्योति दुबे, आलोक मालवीय, गोपाल जी मालवीय, विकास मालवीय, रोहित मालवीय, प्रवीण मालवीय, पंकज मालवीय, प्रखर मालवीय आदि पदाधिकारी गण उपस्थित थे।



एसीपी करछना अजीत सिंह चौहान को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया

प्रयागराज। एसीपी करछना अजीत सिंह चौहान को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सोमवार को सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने उन्हें पदक से अलंकृत कर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। एसीपी अजीत सिंह चौहान का प्रयागराज से पुराना रिश्ता रहा है। वह केपीयूसी हॉस्टल में रहे हैं। वर्ष 1997-98 में

उपनिरीक्षक के तौर पर पुलिस सेवा में आए। 2005 में प्रमोशन मिलने पर इम्पेक्टर बने और 2015 में एसीपी के पद पर पदोन्नति हुई। पिछले साल 15 अगस्त पर तत्कालीन एसीपी सिटी दीनेश सिंह और सीओ कर्नल गंज अजीत सिंह चौहान को राष्ट्रपति पुलिस पदक देने की घोषणा हुई थी। सोमवार को गृह मंत्रालय से राष्ट्रपति पुलिस पदक और सम्मान पत्र मिलने पर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा, डीसीपी नगर दीपक भूकर, डीसीपी अभिषेक भारती, डीसीपी अभिनव त्यागी, डीसीपी श्रद्धा पांडेय समेत अन्य पुलिस अफसरों ने अजीत सिंह चौहान को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए मिले राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए बधाई दी।

संस्कार भारती प्रयाग विभाग का परिवार मिलन कार्यक्रम संपन्न



झूंसी। संस्कार भारती प्रयाग विभाग के तत्वावधान में झूंसी स्थित गौधाम में दीपावली परिवार मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें प्रयागराज महानगर, विश्वविद्यालय प्रयागराज इकाई तथा कौशाम्बी से सहभाग किया। प्रयागराज महानगर इकाई के अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार मिश्र की अध्यक्षता में विभाग संयोजक सुशील राय ने अतिथिगण का स्वागत किया। संतोष पांडेय की शिष्या गरिमा, अनुप्रागी तथा कोमल यादव ने भजन-गीत की प्रस्तुति दी। प्रयागराज घराने के तबला गुरु पं० अनुप बनर्जी के शिष्यों ने सामूहिक प्रस्तुति दी विकास इलाहाबादी एवं मोहिनी श्रीवास्तव के भजनों को सराहा गया विश्वविद्यालय इकाई की अध्यक्ष डा० इन्दु शर्मा के निर्देशन में भी भजन की प्रस्तुति हुई। हारमोनियम पर संतोष पांडेय तथा तबले पर स्वयं अनुप बनर्जी ने संगत की। वरिष्ठ कवि रामभूनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में योगेन्द्र कुमार मिश्र विश्वबन्धु जितेन्द्र मिश्र जलज, कमलेश पाण्डेय अभिषेक केसरवानी आदि कविगण ने अपनी-अपनी रचनाओं से श्रोताओं का भाव-विभोर कर दिया। कवि-गोष्ठी का गरिमापूर्ण संचालन संतोष शुक्ल समर्थ तथा कार्यक्रम का सफल संचालन जिला महामंत्री धनंजय शाश्वत ने किया। प्रयागराज जिला अध्यक्ष गिरिजाशंकर मिश्र राजन ने सभी अतिथियों का आभार जताया कार्यक्रम में एडिशनल जनरल एडवोकेट अशोक मेहता, निरंकर त्रिपाठी, धनेन्द्र शर्मा, एचसी शर्मा, बीके सिंह, आशुतोष त्रिपाठी, विश्व हिन्दू परिषद काशी प्रांत के विमल प्रकाश, सुरेश अग्रवाल, परशुराम अखाड़ा के संत सुदर्शन, कौशांबी के अध्यक्ष तेजेन्द्र सिंह, महानगर इकाई के मंत्री विभव शंकर मिश्र, नाट्य जगत के आलोक नैयर अमित यादव आदि विशिष्ट जन उपस्थित रहे।

प्रतापगढ़ संदेश

कार्तिक पूर्णिमा पर मां गंगा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

मानिकपुर व कालाकांकर गंगा नदी पर रही भीड़

अखंड भारत संदेश

परियावां, प्रतापगढ़। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर सोमवार को मानिकपुर व कालाकांकर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पतित पावनी मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पाप धोकर पुण्य कमाये। गंगा घाट किनारे सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम दिखाई दिये चप्पे चप्पे पर मानिकपुर गंगाघाट किनारे से लेकर मां जवाला देवी मंदिर तक महिला व पुरुष की डिव्यूटी लगी रही।

घाट किनारे स्मार्थियों की सुरक्षा के लिए मानिकपुर थाना प्रभारी मनोष कुमार पांडे व नवाबगंज थाना प्रभारी



कालाकांकर गंगा में स्नान करते श्रद्धालुगण।

सुधीर कुमार सोनी अपने स्टॉफ के साथ भ्रमण करते दिखाई दिये। स्मार्थियों ने स्नान करने के बाद मां गंगा के साथ घाट किनारे स्थित मंदिरों में पूजन अर्चन किया और परिवार की सुख समृद्धि की ईश्वर से प्रार्थना किया। मानिकपुर में बाहर से बस व ट्रेन के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान के दौरान परेशानी

न होने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल सुरक्षा में लगे रहे, जिसमें भूले भटके शिविर भी लगाया गया। स्नान का दौर दोपहर लगभग 3 बजे तक चलता रहा। मौसम का मिजाज खराब होने पर भी स्नान करने वालों का ताँता लगा रहा। शांतिपूर्ण ढंग से स्नान व मेले का पर्व सम्पन्न होने से शासन प्रशासन ने राहत की सांस ली।

कार्तिक पूर्णिमा पर दीपमालाओं से सजाया गया बुद्ध विहार

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। जिले के सई नदी के तट पर स्थित सुगतानन्द बुद्ध विहार पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पावन भिक्षु संघ द्वारा त्रिशरण, पंचशील, आनापानसति ध्यान साधना, व धम्मचक्र पवतन सूत का संगायन किया गया। कार्यक्रम का बुद्धारम्भ पूज्य भन्ते अश्वजित के द्वारा त्रिशरण, पंचशील व दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम का संयोजन व

संचालन करते हुए राकेश कन्नोजिया ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा में बौद्ध आध्यात्मिक जगत में बहुत पावन महत्व है आज ही के दिन वर्षावास का पूर्ण समापन कर चरथ भक्ख वैचारिक बहुजन हिताय बहुजन सुखय लोक नुकम्पाय की कल्याण धम्मसुत के साथ विश्वगुरु तथागत बुद्ध द्वारा प्रथम 60 अर्हत भिक्षुओं को लोक कल्याण हेतु चारों दिशाओं में जाकर धम्म प्रचार-प्रसार का आदेश दिया था। इस अवसर पर श्री राम उमर वैश्य ने कहा कि धम्मसेनापति भन्ते सारिपुत्त का महापरिनिर्वाण

व राष्ट्र गौरव धम्म शासक सम्राट अशोक के परिनिर्वाण भी हुआ था। आचार्य उमेश चन्द्र ने नेतृत्व में धम्मचक्र पवतन सूत का सामूहिक संगायन किया गया। आभार उपासक राजीव कुमार ने व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉ० विजय सरोज, रंजू, प्रियन्स, प्रभात सम्यक, शिव कुमार, रन्नु निर्मल, सुनील कुमार, धर्मेश कुमार, विवेक पटेल, बसन्त मौर्य, राम सुख, अंकुर, निशान्त मौर्य, प्रशान्त मौर्य, शेखर मौर्य, तन्मय जिगर, राजेश कुमार, राम मिलन आदि उपासकगण मौजूद रहे।

मां विंध्यवासिनी दर्शन यात्रा विंध्यचल के लिये हुई रवाना



मां विंध्यवासिनी दर्शन यात्रा को रवाना करते डा० आशुतोष त्रिपाठी।

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। निःशुल्क 11वीं जगत जननी मां विंध्यवासिनी दर्शन यात्रा प्रातः 8:00 बजे भगवा चुंगी स्थित डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी के जनसंपर्क कार्यालय को लेकर प्रस्थान की। मां विंध्यवासिनी दर्शन यात्रा को सदर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी द्वारा माता रानी की ध्वजा पता का दिखाकर समस्त दर्शनार्थियों को माता रानी का जयकारा लगाते हुए प्रस्थान कराया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आशुतोष त्रिपाठी के प्रतिनिधि सुशील मल्होत्रा, जगदीश कुमार मौर्य, राजकुमार, जायसवाल कुमार शुक्ला, अरुण कुमार शुक्ला, प्रेम नारायण त्रिपाठी, नारायण शर्मा, जितेंद्र कुमार मिश्रा, अर्चना सिंह, पिकी मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे।

तीन महीने के लिए ऊंचाहार एक्सप्रेस को रेल विभाग ने किया निरस्त परियावां रेलवे स्टेशन से लम्बी दूरी तक सफर करने वालों को होगी परेशानी

अखंड भारत संदेश

परियावां, प्रतापगढ़। प्रयागराज लखनऊ रेलवे ट्रेक पर परियावां रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ऊंचाहार चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन (14217 अप व 14218 डाउन) को रेल विभाग 2 दिसंबर 23 से 28 फरवरी 24 तक के लिए बन्द कर रहा है जिसके चलते परियावां रेलवे स्टेशन से कानपुर दिल्ली लुधियाना व चंडीगढ़ को आने जाने वाले यात्रियों को ट्रेन से सफर करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

मालूम हो कि परियावां रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ के लिए यही एक मात्र सीधी ट्रेन है जिससे प्रयागराज से लेकर कानपुर सेटल तक के यात्री चंडीगढ़ लुधियाना दिल्ली का सफर करते हैं इस ट्रेन से रेल विभाग को महीने भर में लाखों रुपये की आमदनी होती थी ट्रेन के बन्द कर देने से जहां रेलवे को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा वहीं यात्रियों को लम्बी दूरी को सफर करने के लिए मुंबईवालों का सामना करना पड़ेगा। उक्त ट्रेन के

बन्द हो जाने से खास कर परियावां रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले यात्रियों को कानपुर सेटल तक पहुंचने के लिए कानपुर प्रयागराज संगम पैसेजर ट्रेन (04101 अप व डाउन 04102) का सहारा है परियावां स्टेशन से कानपुर सेटल तक जाने व आने वाली कानपुर प्रयागराज इंटर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन 14101 अप 14102 डाउन का स्टॉपेज परियावां स्टेशन पर नहीं है जिससे यात्री ट्रेन की सफर से वंचित है यदि रेल विभाग उक्त ट्रेन के बारे में गंभीरता से विचार करे तो रेल विभाग अच्छा खासा नुकसान से बच सकता है उक्त ऊंचाहार एक्सप्रेस ट्रेन को निरस्त की जगह कानपुर सेटल तक पूर्णतः संचालित हो जाने से यात्रियों को परेशानी दूर हो सकती है जिससे रेल विभाग की आमदनी में इजाफा होने से इंकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि रेल विभाग के पाठ ऊंचाहार चंडीगढ़ एक्सप्रेस एक मात्र ट्रेन है जो प्रयागराज संगम से फाफामऊ, रामचैरा, लालगोपालगंज, कुंडा, मानिकपुर,

परियावां, ऊंचाहार, डलमऊ, लालगंज, तकिवा, बीधापुर उनाव तक के यात्री दिल्ली लुधियाना व चंडीगढ़ का सफर करते हैं जिससे रेल विभाग को प्रतिदिन सौंठे स्टेशनों को मिलाकर लाखों रुपये की आमदनी होती है, फिर भी आमदनी वाली ट्रेन को रेल विभाग हर वर्ष टंड की सीजन में बन्द कर देता है। स्थानीय व्यापारी मिश्रालाल विश्वकर्मा, मोहित मिश्रा भाजपा कुसुवापुर मंडल अध्यक्ष, अनिल अग्रहरि, गनेश अग्रहरि, नरेंद्र पांडे, बच्चन तिवारी, पणु गुप्ता, अर्जुन गुप्ता, गोपाल अग्रवाल, कमलेश अग्रवाल, मनोज जायसवाल, दीनानाथ जायसवाल, योग सोनी, चुम्मन सोनी, रामजी अग्रहरि, डब्लू अग्रहरि, अर्पित अग्रहरि, बबलू अग्रहरि, अश्वनी मोहनवाल, आशीष जायसवाल, रामकेश बाबा, बाले, कोके, अमित अग्रहरि, रामजस शुक्ला, सनो शुक्ला, अनिल मौर्य ग्राम प्रधान परियावां आदि लोगों ने कोषाधी संसद विनोद सोनकर के साथ डीआरएम प्रयागराज का ध्यान उक्त ट्रेन की तर्फ दिलाया है।

पुलिस ने धार्मिक स्थलों से उतरवाए 350 लाउडस्पीकर

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर आज पूरे जनपद में भोर में थानाध्यक्षों एवं पुलिस कर्मियों द्वारा तेज ध्वनि से बजने वाले धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर उतरवाए गये। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि बार-बार निर्देश दिये जाने के बाद धार्मिक स्थलों पर सुबह पांच बजे से ही तेज ध्वनि से लाउडस्पीकर बज रहे थे। इस पर कार्यवाही करते हुए आज सुबह भोर में पांच बजे पूरे जिले में यह अभियान चलाया गया जिसमें 350 लाउडस्पीकर मंदिरों व मस्जिदों से उतरवाए गए और चेतावनी दी गई कि लाउडस्पीकर निर्धारित आवाज में ही चलाए जाते हैं कि भोर में मंदिरों व मस्जिदों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने पर उच्च न्यायालय ने भी रोक लगाई है। इसी क्रम में शासन द्वारा निर्देश का पालन करते हुए पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने यह अभियान चलाकर सोमवार की भोर में 350 लाउडस्पीकर को उतरवा दिया।

गुरुनानक देव के 554वें आगमन पर नगर में निकली शोभा यात्रा

गुरुद्वारे में हुआ सबद गायन व कीर्तन

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। सोमवार को गुरुद्वारा गुरुसिंह सभा पंजाबी कालोनी से श्री गुरुनानक देव महाराज के 554वें आगमन पुरब पर सुबह आठ बजे श्री अखंड पाठ साहिब का समापन हुआ। इस दौरान विशाल नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई जो पूरे नगर में भ्रमण किया।

3.45 बजे गुरुद्वारा सिंह सभा से एक विशाल नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई जो अपने शानो शौकत के साथ एक नगर कीर्तन शोभायात्रा श्री गुरुग्रंथ साहिब जी की सरपरस्ती व पंच प्यारों के नेतृत्व निकाली गई। नगर कीर्तन का मुख्य आकर्षण फूलों इस सजे रथ पर श्री



शोभा यात्रा में शामिल पंच प्यारों।

गुरुग्रंथ साहिब जी की सवारी, पुरुषों एवम महिलाओं के कीर्तनी जल्ये जो गुरु साहिब जस गायन करते चल रहे थे। नगर कीर्तन शोभायात्रा में सिख समाज के अलावा सभी समाज के बंधु शामिल होकर शोभा बढ़ा रहे थे। नगर में जगह जगह

बजे से बीबी मंजीत कौर ने शब्द गायन किया। 2.00 बजे से कानपुर से पधारें भाई सुरजीत सिंह ने अपने जल्ये के साथ कीर्तन किया व गुरु इतिहास बताया। 3.30 बजे अरदास उतरात गुरु का अटूट लंगर वितरण किया गया। कीर्तनी जल्ये गुरु महाराज के शब्द कीर्तन गायन करते हुए चल रहे थे। शब्द कीर्तन गायन कर रहे थे। शोभायात्रा शुरू होकर राजपाल टंकी, श्रीराम तिराहा चैक घंटा घर, गुरुनानक चैक भंगवा चुंगी होते हुए गुरुद्वारा नानक शाही बाबागंज पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा का नेतृत्व गुरुद्वारा के प्रधान कुलदीप सिंह, परमजीत सिंह राजू, सविंदर सिंह बग्गा, जसबीर सिंह विक्की, सतनाम सिंह, कुलजीत सिंह, रघुबीर सिंह, रमन जीत सिंह, कुलदीप सिंह शंटी द्वारा किया गया। उक्त जानकारी मंजीत सिंह गोविंद ने दी।

भाजयुमो की जिला प्रशिक्षण व कार्यशाला का हुआ आयोजन

नए वोटों को जोड़ने के लिये हुई चर्चा

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला प्रशिक्षण व कार्यशाला जिला कार्यालय टेंऊगा पर आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा अंशुमान सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई।

कार्यशाला में विभिन्न कार्य योजना की रूपरेखा तैयार हुई युवा मोर्चा द्वारा वोट चेतना महा अभियान के तहत नए वोटों को जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय कोर्सांग संस्थान मेडिकल कॉलेज डिग्री कॉलेज मंडल स्तर पर 28 से 30 नवंबर तक कैंप लगाकर नए वोटों को जोड़ा जाएगा। फार्म 6 के माध्यम से और मंडल सशक्तिकरण युवती सम्मेलन को



चित्र पर माल्यार्पण करते भाजयुमो नेता।

लेकर चर्चा हुई। भारत सरकार द्वारा चल रही विभिन्न योजनाओं को निचले स्तर तक प्रचार प्रसार के माध्यम से पहुंचने का कार्य युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान मोर्चा राकेश सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व नेहरू युवा केंद्र उपाध्यक्ष भारत सरकार दिनेश सिंह और प्रवासी के रूप में क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य

से सौरभ सिंह का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, मनोज यादव, जिला मंत्री सुनील सरोज, अविनाश सिंह, अंकित सिंह, मदनपाल, प्रदीप सिंह, अश्वनी चरसिया, धीरज, सुमित पांडे, रोहित सिंह, निहाल सिंह, सिद्धांत तिवारी, शिवम द्विवेदी, विनय मिश्रा, जिला कोषाध्यक्ष शोलेश मिश्रा, राजेश कुमार पटेल, चंद्र प्रताप आदि लोग मौजूद रहे।

चोरी की मोटर साइकिल के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के कुशल निर्देशन में जिले में हुई अपराधिक वारदातों के अनावरण व सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अभियान के अन्तर्गत जनपद पुलिस द्वारा लगातार सूचना संकलन व सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० रोहित कुमार व उ०नि० अमित कुमार मय हमराह द्वारा देखाभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र रानीगंज के कसेरुआ वंशी तिराहा के पास से दो व्यक्ति प्रथम सिंह पुत्र गोविन्द सिंह व छोटे लाल सिंह उर्फ छोटे पुत्र तेगा सिंह निवासी ग्राम कसेरुआ चैननगढ़ थाना

रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की एक अदद टीवीएस स्पोर्ट मोटर साइकिल फर्जी नम्बर प्लेट अंकित के साथ गिरफ्तार किया गया।

उक्त चोरी की मोटर साइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रानीगंज में मु०अ०सं० 386/23 धारा 411, 420, 465, 468, 471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पृच्छाछ में बताया कि बरामद मोटर साइकिल टीवीएस स्पोर्ट चोरी की है पकड़े जाने के डर से नम्बर प्लेट को बदल दिया है, जिसे हमने थाना महेशगंज क्षेत्र से चोरी किया। पुलिस टीम में उ०नि० रोहित कुमार व उ०नि० अमित कुमार मय हमराह थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ शामिल रहे।

अग्निशमन विभाग ने जीआरपी व यात्रियों को दी आग से बचाव की जानकारी

फायर ड्रिल व मार्कड्रिल का कराया प्रदर्शन

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे के निर्देश पर आज रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के अधिकारियों, कर्मचारियों व यात्रियों को अग्निशमन विभाग की प्रतापगढ़ टीम ने प्रशिक्षित किया गया। इस बारे में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सौरभ सक्सेना ने बताया कि रेलवे के डिब्बों में आग लगने की घटनाओं को देखते हुए रेल यात्रियों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के लिये जीआरपी कर्मियों को फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण दिलाने का प्रयास किया गया।

आज जीआरपी के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित यात्रियों को प्रभारी अग्निशमन अधिकारी की टीम द्वारा अग्नि सुरक्षा विषय पर व्याख्यान एवं फायर ड्रिल/मार्कड्रिल कराया गया। कार्यक्रम के दौरान एलपीजी



रेलवे स्टेशन पर आग से बचाव की जानकारी देते अग्निशमन अधिकारी।

सिलेण्डर में आग लगाकर फायर एक्सटिंग्यूशर से तथा अन्य प्रायोगिक विधियों से आग बुझाने का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी

सौरभ सक्सेना, राधेश्याम दुबे, सत्यप्रकाश यादव, अमित सिंह, विजय बहादुर यादव आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम की उपस्थित लोगों तथा यात्रियों ने सराहना की।

पत्रकार अवधेश सिंह के पिता के निधन पर लोगो ने जताया शोक

अखंड भारत संदेश

पट्टी, प्रतापगढ़। पट्टी के वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह के पिता का लंबी बीमारी के बाद रविवार की दोपहर निधन हो गया, वह 90 वर्ष के थे। उनके निधन पर कई पत्रकारों सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने शोक प्रकट किया है। पट्टी तहसील के सराय महेश गांव के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह के पिता शमशेर बहादुर सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका दिल्ली स्थित एम्स में काफी दिनों से इलाज चल रहा था।



शमशेर बहादुर सिंह (फाइल फोटो)

रविवार की दोपहर लगभग दो बजे उन्होंने जीवन की अंतिम सांस ली। उनके निधन की सूचना पर उनके आवास पर सत्त्वना देने वालों को ताता लगा रहा। उनके निधन पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह नगर अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल, पत्रकार रोहित जायसवाल, पत्रकार राकेश तिवारी, पत्रकार बालेंदुभूषण पांडेय, मनोज यादव सहित क्षेत्र के कई लोगों ने अपनी संवेदना प्रकट किया है। वहीं सोमवार को सुबह की उनके निधन पर कई ग्रामीणों ने उनके आवास पर पहुंच कर संवेदना प्रकट किया। शमशेर बहादुर सिंह बहुत ही नेक, ईमानदार व संघर्शील व्यक्तित्व के धनी थे।

सपा नेता प्यारे लाल खैरा के निधन पर सपाईयों ने जताया शोक

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्यारे लाल खैरा काका के आकस्मिक निधन की खबर पर सपाइयों ने गहरा शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति व परिजनों को इस दुःख की घड़ी को सहन करने हेतु ईश्वर से प्रार्थना की है। निधन की जानकारी पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे सपा महासचिव अब्दुल कादिर जिलानी ने सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उतम पटेल को फोन पर जानकारी दी। जानकारी पर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उतम पटेल ने परिजन से फोन पर बात कर संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को दंडस बंधाया। उन्होंने ने कहा कि इस दुःख की बेला पर पूरी समाजवादी पार्टी आपके साथ है, हर सम्भव मदद की जायेगी। शोक संवेदना जताने पहुंचे पूर्व जिला अध्यक्ष भैया राम पटेल, कोषाध्यक्ष अश्वनी सोनी, जिला उपाध्यक्ष आशुतोष पांडेय, नगर अध्यक्ष निसार अहमद, मीडिया प्रभारी वकार अहमद, गुलफाम खान आदि ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम सबके बीच से समाजवादी पार्टी का एक ऐसा सिपाही चला गया जिसकी भरपाई भविष्य में सम्भव नहीं है। लोगों ने कहा कि उन्होंने संवेदना पार्टी को आगे बढ़ाने में अपने अहम भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्ग दर्शक की भूमिका में रहा करते थे। प्यारेलाल खैरा की कमी हम लोगों को सदैव खलती रहेगी।

दुर्घटना को दावत दे रहा परियावां 35 सी रेलवे फाटक

अखंड भारत संदेश

परियावां, प्रतापगढ़। प्रयागराज लखनऊ रेलवे ट्रेक के परियावां कालाकांकर रेलवे स्टेशन के 35 सी रेलवे फाटक से परियावां लवाना मार्ग को गुजरने वाली सड़क रेलवे ट्रेक के बीच में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये जिसके चलते ट्रेन आने के समय रेलवे फाटक बन्द करने के दौरान रेलवे ट्रेक के बीच में वाहन के फस जाने या वाहन पर लदा सामान के गिर जाने का खतरा बना रहता है। अभी हाल ही में ट्रेक्टर पर लदा धान का पैरा रेलवे ट्रेक के बीचों बीच सड़क के क्षतिग्रस्त होने से गिर गया जिससे माल बाहक डिब्बा बन्द ट्रेन 20 मिनट तक खड़ी रही रेलवे ट्रेक खाली होने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। स्थानीय व्यापारियों ने रेल विभाग के उच्च अधिकारियों का ध्यान 35 सी रेलवे फाटक परियावां की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है।

मुक्कू ओझा व जेपी मिश्र के ऊपर रिपोर्ट दर्ज होने पर कांग्रेसी खफा

सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

अखंड भारत संदेश

प्रतापगढ़। नगर कांग्रेस कमेटी की एक बैठक जिला कांग्रेस कार्यालय, इन्दिरा भवन में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष एडवोकेट इरफान अली व संचालन एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष एडवोकेट उत्सव भूषण पाल ने किया।

बैठक को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष एडवोकेट इरफान अली ने रूरल वार के प्रदेश अध्यक्ष मुक्कू ओझा एवं पूर्व महामंत्री जय प्रकाश मिश्रा जेपी के ऊपर दर्ज मुकदमे की घोर निंदा करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं के ऊपर आए दिन पुलिस प्रशासन द्वारा बिना जांच के मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। वहीं आम नागरिकों की तरफ से दिए तहरीर पर मुकदमा थानों के चक्कर लगाने के बाद भी नहीं होता है चैकी एवम थानों पर अधिवक्ताओं को उचित सम्मान भी नहीं मिलता है स बूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट डॉ. नीरज त्रिपाठी ने कहा कि यदि हमारे दोनों



इंदिरा भवन पर आयोजित बैठक में बोलते नगर अध्यक्ष इरफान अली।

अधिवक्ताओं के ऊपर से मुकदमा वापस न लिया गया तो हम मंगलवार से सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन

व प्रशासन की होगी। संचालन कर रहे एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष एडवोकेट उत्सव भूषण पाल ने कहा कि अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमा दुर्भाग्य पूर्ण है पुलिस

चौकी इंचार्ज सहित आधा दर्जन सिपाही को एसपी ने किया निलम्बित

अखंड भारत संदेश

चिलबिला में महिला की आत्महत्या में लापरवाही बरतने पर हुई कार्यवाही

मेरे परिवार वाले भी उठाएंगे, जिसका जिम्मेदार बने होगा। इस दौरान कंचन ने अपनी वीडियो भी बनाया और फांसी पर लटककर अपनी जान दे दी थी। बता दें कि कंचन छह भाईयों में इकलौती बहन थी। घर, जमीन व दुकान के झगड़े को लेकर वह अक्सर परेशान रहती थीं। जब पुलिस और प्रशासन ने नहीं सुनी तो कल हारकर उसने मौत को गले लगा लिया। कंचन की मौत को लेकर छह टंक हाईवे जाम रहा। इस पर पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया था। इस दौरान जांच रिपोर्ट में लापरवाही पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक ने चिलबिला चैकी इंचार्ज शेषनाथ समेत छह पुलिसकर्मियों को निलम्बित किया है।

प्रतापगढ़। नगर कोतवाली क्षेत्र के चिलबिला में विकलांग ब्यूटी पार्लर संचालिका द्वारा दबंगों से आहत होकर सुसाइड करने के मामले में एसपी सतपाल अंतिल का बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस अधीक्षक ने चिलबिला चैकी इंचार्ज शेषनाथ समेत छह पुलिसकर्मियों को निलम्बित किया है। पुलिस कर्मियों पर मामले में लापरवाही बरतने पर पूरी चैकी पर गिरा जाज है। बता दें कि मृतका दिव्यांग कंचन ने आत्महत्या करने से पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि योगी जी, मैं यह असहनीय पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, कल ये ही कदम

कौशाम्बी संदेश

खबर संक्षेप

घर के बाहर सो रहे
अधेड़ की टंड
लगने से मौत

कौशाम्बी। जिले में टंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, टंड से गरीब परिवार अब परेशान होने लगे हैं, टंड लगने से सोमवार की रात एक अधेड़ की तबियत बिगड़ गई, जब तक परिजन इलाज के लिए ले जाते उसकी मौत हो गई, अधेड़ की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के मुताबिक कोखराज थाना क्षेत्र के नगर पालिका परिषद भरवारी के वार्ड नंबर 20 केशव नगर के निवासी कमलेश सरोज उम्र 40 वर्ष लगभग पुत्र राम दास प्रतिदिन की तरह अपने घर के बाहर बिस्तर लगाकर सो रहे थे, रात में टंड लगने से अचानक उसकी तबियत खराब हो गई, परिजन जब तक उसे इलाज के लिए कहीं ले जाते तब तक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक कमलेश के 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। कमलेश की मौत से उसकी पत्नी और मासूम बच्चे बेसहारा हो गए हैं। परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार सदीपन घाट पर ले जाकर कर दिया है।

भूमिधारी जमीन पर निर्माण कर रहे कुनबे पर दबंगो ने किया हमला

लाठी डंडे कुल्हाड़ी के हमले से एक ही परिवार के चार लोगो को आई गम्भीर चोट

अखंड भारत संदेश

कौशाम्बी। चरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम धमसेढा में अपनी भूमिधारी जमीन पर निर्माण करना पड़ने से दबंगो को नगवार गुजरा तो दबंगो ने पूरे कुनबे पर लाठी डंडा और कुल्हाड़ी से हमला करके लहलुहान कर दिया है इस हमले में एक ही परिवार के मां बेटा बेटा सहित चार लोगो को गम्भीर चोट आई है गम्भीर रूप से घायल हालत में पीड़ित परिवार ने चरवा थाना प्रभारी को शिकायती प्रार्थना देकर न्याय की गुहार लगाई है जानकारी मिलते ही चरवा थाना पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर लिया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार धमसेढा गांव की रहने वाली राजकुमारी पत्नी पंचम लाल ने थाने में शिकायती प्रार्थना पत्र में बताया कि सोमवार की सुबह करीब आठ बजे जब वह अपने भूमिधारी



जमीन में पक्का मकान का निर्माण करवा रही थी। तभी गांव के ही लल्लू पारी अपने बेटे महेश पारी व उमाचरण बहू गुड्डा वा पत्नी नाथिया के साथ एक जुट होकर राजकुमारी को गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे से मारने पीटने लगे। जिससे राजकुमारी के सर पर गम्भीर चोट आई है। राजकुमारी की पुत्री अनिता देवी को बुरी नीयत से महेश वा उमाचरण हाथ पकड़ कर घसीट ले गए जिसका



विरोध करने व चीख पुकार सुना तो बीच बचाव करने आए पुत्र संजीव कुमार वा संजय को उक्त दबंग लोगो ने नही बरखा संजय और संजीव पर भी लाठी डंडे कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के प्रहार से संजय के सर पर गम्भीर चोट आई और वह खून से लथपथ हो कर गिर गया संजीव को भी सर व शरीर पर गम्भीर चोट आई है। उसके बाद भी उक्त दबंगो से राजकुमारी के परिवार को



दौड़ाकर घर में घुस कर मारा पीटा हो हल्ला सुनकर जब ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंची तो जान से मार डालने की धमकी देते हुए हमलावर भाग गए। मार पीट में घायल राजकुमारी पुत्र संजय संजीव वा पुत्री अनिता के शरीर सर हाथ व अन्य जगह गंभीर चोट आई है। पीड़ितों की रिपोर्ट चरवा थाना में दर्ज कर ली गई और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है।



जिला क्षय रोग अधिकारी को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने किया सम्मानित

कौशाम्बी। भारत सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जनवरी 2022 में सर्वे कराया गया, जिसमें यह पाया गया कि क्षय रोग के मरीज जनपद कौशांबी में 20% से ज्यादा कम हो गए हैं, इस उपलब्धि पर राज्य स्तर पर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक के द्वारा प्रदेश के 11 जनपदों के जिला क्षय रोग अधिकारियों

को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जनपद कौशांबी से यह सम्मान जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सतत कुमार झा द्वारा प्राप्त किया गया डॉक्टर सतत कुमार झा द्वारा बताया गया कि यह उपलब्धि विभाग के समस्त कर्मचारियों के परिश्रम, जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन एवं सहयोग से प्राप्त किया गया

है। जिला क्षय रोग अधिकारी ने यह भी कहा कि आगामी दिनों में जनपद कौशांबी में क्षय रोग के रोगियों के लिए एक अलग से सर्वे कराया जाएगा जिसमें क्षय रोग के मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज होने की गणना की जाएगी सर्वे में सफलता प्राप्त करने पर जनपद कौशांबी का सिल्वर मेडल प्राप्त करने का लक्ष्य होगा।

बेटी सहित दंपति पर दबंगों ने किया हमला

खेत में बोई आलू की फसल से सिंचाई का पानी न ले जाने का महिला ने किया था विरोध



महेवाघाट कौशांबी। पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के अण्डा गांव में अपने खेत में बोई आलू की फसल से सिंचाई का फटा पाटा लगा ले जाने से मना करने पर गांव के दबंग करीमुल्ला उनका बेटा बबलू जलील अहमद और उनका बेटा इकबाल और सैफ अली आदि ने मितकर पाइप ले जाने का विरोध करने वाली महिला मोमिना बेगम को लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा है। महिला जान बचाकर घर भाग आई लेकिन दबंगों

ने पीछा नहीं छोड़ा और महिला के घर दबंग घुस गए गाली गलौज देते हुए उसके पीते हुए पति और बच्ची को भी लाठी डंडे से मारा पीटा है। परिवार के लोगों को बाहर खींचकर बीच रास्ते में दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर जमकर पीटा है। मारपीट से महिला और उसके परिवार के लोग चिखते चिल्लाते रहे और दबंग लगातार हमला करते रहे सोशल मीडिया में दबंगों के मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है इस हमले में बेटा समेत

दंपति को चोट आई है दबंग के हमले के बाद मौके पर तमाम लोगों की भीड़ लग गई काफी देर तक गांव में अराजकता का माहौल बना रहा जिस पाइप से दबंग खेत की सिंचाई कर रहे थे वह पाइप फटा था जिससे महिला के खेत में भी पानी भर जाता है और महिला के खेत के आलू की फसल बर्बाद हो जाती मामले की सूचना महिला मोमिना बेगम ने थाना पुलिस को देकर दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है।

किजारा आयुर्वेदिक दवाइयां खाएं निरोग रहिए है स्वस्थ रहिए

तिल्हापुर मोड कौशांबी। नगर पंचायत सराय अकिल के श्याम गेस्ट हाउस में किजारा आयुर्वेदिक कंपनी के टाप लीडर जे के सिंह ने समारोह के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधी के बारे में लोगों को बता कर जागरूक करते हुए लोगों को किजारा आयुर्वेदिक औषधी को इस्तेमाल करने की अपील किया साथ ही किजारा आयुर्वेदिक कंपनी से जुड़े लोगों को सम्मान एवम पुरस्कार भी दिया और कहा कि इस समय दुनिया में खान पान के कारण सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही है जैसे बी पी सुगर दमा अस्थमा चेचक मुहासे कैसर हार्ड अटैक गठिया बाई बालो का झड़ना दांते में पानी लगना अधिक मोटापा एडियो का फटना महिलाओं का बाइज पन पाइलस करिना जैसे गंभीर बुखार इन सबसे निपटने के लिए किजारा आयुर्वेदिक औषधी को अपनाकर आप लोग अच्छा स्वस्थ अछा जीवन और लंबी आयु प्राप्त कर सकते हैं किजारा आयुर्वेदिक कंपनी के टाप लीडर जे के सिंह और



आर के गुप्ता ने किजारा में काम करने वाले डॉक्टरों का प्रमोशन करके हासिला अफजाई किया जिसमें श्री मति सपना देवी पत्नी विनोद कुमार गोलड स्टार श्री मति उषा देवी पत्नी देवी प्रसाद सिल्वर स्टार कृपा संकर द्विवेदी विजय बहादुर विश्वकर्मा सुपर क्वेसी सुनीता देव्या गौतम लाल गुप्ता संजीव कुमार चौरसिया सौरभ विश्वकर्मा सुख लाल पुष्पेन्द्र सोनी अनिल कुमार किवेशी मंजिता यादव रोजी रानी राज कुमार द्विवेदी कैफ सिद्धीकी

शिवनरेश सेन अयोध्या प्रसाद फूल चंद्र दूखी लाल क्वालीफाई रैंक हासिल किया सभी प्रमोटेड प्रसनालटी को मंच माला माइक और मनी कम्पनी के तरफ से प्रदान किया गया इस दौरान डॉक्टर राज कुमार शुक्ला डॉक्टर एस एन यादव डॉक्टर सुरेश कुमार डॉक्टर मोहम्मद अहमद डॉक्टर सीमा कुशवाहा डॉक्टर सम्पूर्ण आनंद डॉक्टर धर्म नारायण चौधरी डॉक्टर द्वारिका प्रसाद डॉक्टर अंसुल गुप्ता एवम अन्य सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

कृष्ण सुदामा झांकी व राधा कृष्ण झांकी ने दर्शको का मनमोहा

थाना चरवा क्षेत्र के सैय्यद सरावा गांव में एक दिवसीय मेला हुआ सम्पन्न

कौशाम्बी। चरवा थाना क्षेत्र के सैय्यद सरावा गांव में एक दिवसीय मेले में मनमोहक झांकियों का आनन्द हजारों की तादात में मेला देखने पहुंचे दर्शकों ने लिया मेला देखने महिला पुरुष बच्चे बड़े सहित हजारों लोग मेला में पहुंचे और जमकर आनंद लिया सैय्यद सरावा मेला में मुस्कान चौराहे से तीन झांकिया निकल कर रामलीला मैदान तक कलात्मक झांकिया प्रदर्शित हुईं। जिसे देखने के लिए इलाके का हनुम उमड़ पड़ा कलाकारों ने राधा कृष्ण लीला कृष्ण सुदामा लीला महाकाल भक्ति लीला, साई बाबा कथा आदि भक्ति लीलाओं से ग्राम वासियों व दर्शकों का मन मोह लिया। मेले में डीजे कम्पटीशन को लेकर कमेटी के



सदस्य व चौकी प्रशासन में हुई नोकझोंक
कौशाम्बी सैय्यद सरावा मेले में सोमवार सुबह 6 बजे मेला कमेटी, चौकी कमेटी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि चौकी का कम्पटीशन चौराहे से 200 मीटर अंदर तालाब के पास हो रहा था जिसमें सैय्यद सरावा चौकी प्रभारी व अन्य सिपाहियों ने आकर मारा पीटा जिस पर आक्रोशित होकर ग्राम वासी व कमेटी सदस्यों ने इनकी शिकायत कोशांबी सांसद विनोद सोनकर से की है।

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 02 अभियुक्त गिरफ्तार

कौशाम्बी। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कड़ाधाम पुलिस के द्वारा उ0नि0 रणजीत सिंह मय हमराह पुलिस के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे इसी दौरान सूचना मिली कि सार्वजनिक स्थान पर बैठकर कुछ लोग जुआं खेल रहे हैं। मौके पर पहुंचकर 02 अभियुक्तों जगन्नाथ पुत्र राम विशाल व प्रमोद कुमार पुत्र रामचन्द्र नि0 जहागीरबाद थाना कड़ाधाम हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 52 अदद तास के पते व 310 रु0 मालफंड से तथा 260 रु0 जामातलारी से बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 319/23 धारा 13 जुआ अधिन0 पंजीकृत किया गया और उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

30 को आयोजित होगी जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता

कौशाम्बी उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) उत्तर प्रदेश शासन) के दिशा निर्देशन में जिला विज्ञान क्लब कौशाम्ब द्वारा 30 नवंबर को हुबलाल इंटर कॉलेज भरवारी में जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी अपने मॉडल प्रस्तुत करेंगे। उक्त जानकारी देते हुए उरीम अहमद समन्वयक जिला विज्ञान क्लब कौशाम्बी ने बताया कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, ताकिक क्षमता, कल्पनाशीलता, उनमें वैज्ञानिक पद्धति के कार्य कलाओं एवं वैज्ञानिक व्यक्तित्व विकसित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य जनमानस विशेषकर विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु विभिन्न विज्ञान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन एवं वैज्ञानिक गतिविधियां आयोजित करायी जाती है। उक्त के दृष्टिगत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों को व्यापक स्वरुप देने के उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश शासन) द्वारा गत वर्ष से जनपद मंडल व राज्य स्तर पर विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद स्तर पर जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रमशः कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के 100 मॉडल प्रस्तुत किये जायेंगे। जनपद स्तर पर गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा 15 मॉडलों का चयन करते हुए मंडल स्तर हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्हीं 15 चयनित मॉडलों में से मूल्यांकनोपरांत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के प्रथम

,द्वितीय ,तृतीय पुरस्कार हेतु क्रमशः रु5000/रु3000/ रु2000 एवं 2 विद्यार्थियों को सात्वना पुरस्कार हेतु रु1000/ (प्रत्येक को) दिए जाने के साथ प्रशस्ति पत्र /सम्मान /प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं निर्धारित नकद धनराशि से सम्मानित किया जाएगा एवं अन्य प्रतियोगियों को भी प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिए जायेंगे। मंडल स्तर पर प्रत्येक जनपद के चयनित 15 मॉडलों का प्रदर्शन सम्बन्धित मंडल स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता (माह दिसंबर 2023) में किया जाना है। मंडल स्तर पर गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा 5 मॉडलों का चयन करते हुए राज्य स्तर हेतु उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्हे 5 चयनित मॉडलों में से मूल्यांकनोपरांत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को प्रथम ,द्वितीय व तृतीय एवं 2 सात्वना पुरस्कार हेतु क्रमशः रु.10000/ रु.7000/ व रु.5000/एवं रु.2000/(प्रत्येक को) दिये जाने के साथ प्रशस्ति पत्र/सम्मान/ प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं निर्धारित नकद राशि से सम्मानित किया जायेंगा एवं अन्य प्रतियोगियों को भी प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिया जायेंगा। प्रत्येक मंडल के चयनित 5 मॉडलों का प्रदर्शन आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर दिनांक 11 मई 2024) में किया जाएगा। राज्य स्तर पर गठित तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा सौच्य 8 मॉडलों का चयन किया जाएगा जिसमें से प्रथम , द्वितीय , तृतीय पुरस्कार एवं 5 सात्वना पुरस्कार हेतु क्रमशः रु 50000/ , रु40000/ , रु 30000/ एवं रु5000 (प्रत्येक को) दिए जाने के साथ प्रशस्ति पत्र /सम्मान / प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह एवं निर्धारित नकद धनराशि से सम्मानित किया जाना है। अन्य प्रतियोगियों को भी प्रतिभागिता प्रमाण पत्र दिया जायेंगा।

सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते 02 अभियुक्त गिरफ्तार

कौशाम्बी। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कड़ाधाम पुलिस के द्वारा उ0नि0 रणजीत सिंह मय हमराह पुलिस के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे इसी दौरान सूचना मिली कि सार्वजनिक स्थान पर बैठकर कुछ लोग जुआं खेल रहे हैं। मौके पर पहुंचकर 02 अभियुक्तों जगन्नाथ पुत्र राम विशाल व प्रमोद कुमार पुत्र रामचन्द्र नि0 जहागीरबाद थाना कड़ाधाम हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 52 अदद तास के पते व 310 रु0 मालफंड से तथा 260 रु0 जामातलारी से बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 319/23 धारा 13 जुआ अधिन0 पंजीकृत किया गया और उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

वारण्टी अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

कौशाम्बी। कोखराज थाना पुलिस ने उ0नि0 सन्तोष चौरसिया मय हमराह पुलिस बल द्वारा वारंटी अभियुक्त हरिश्चन्द्र तिवारी पुत्र जंग बहादुर नि बिसारा थाना कोखराज जनपद कौशांबी को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। वारंटी अभियुक्त हरिश्चन्द्र तिवारी काफी दिनों से पुलिस से बचने के लिए फरार चल रहा था लेकिन मुखबिर खास की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया।

चोरी का वाछित अभियुक्त चोरी के रूपयों के साथ गिरफ्तार

कौशाम्बी। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महवाघाट पुलिस बल द्वारा उ0नि0 नन्दू यादव मय हमराह पुलिस बल के साथ गश्त/चैकिंग के कर रहे थे इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों राम पूजन यादव पुत्र श्रीपाल नि0 छिबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट व रिकू यादव पुत्र लालजी यादव नि0 टिकरा थाना महवाघाट जनपद कौशांबी को मवई रैदास पुत्र हनुमान प्रसाद नि0 रायपुर थाना महवाघाट व शैलेन्द्र कुमार पुत्र मान सिंह नि0 हटवा अम्बासपुर थाना महवाघाट को भैरव बाबा मन्दिर रायपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के रूप क्रमशः 7800 व 7200 रु0 बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

न्यूज झरोखा

धर्मा देवी इण्टर कॉलेज में शिक्षक-अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन



कौशाम्बी। धर्मा देवी इण्टर कॉलेज केन कनवार में 27 नवम्बर को शिक्षक-अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ग्रामीण परिवेश में छात्रों की सफलता में शिक्षकों के साथ-साथ अभिभावकों का दायित्व भूमिका विशेष पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्षेत्राधिकारी सिराथू अवधेश कुमार विश्वकर्मा रहे कार्यक्रम की शुरुवात मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवम् दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्घोषण में गोष्ठी में दिए गए विषय को बहुत ही उपयुक्त बताया, तथा अभिभावकों के यह अपील किया कि छात्र हित में वे यह निवेश करें और छात्र एक पूंजी हैं यदि हम इन पर अच्छे से ध्यान दें तो यह एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। इस संगोष्ठी में कृष्ण प्रकाश त्रिपाठी अबुल कुमार रवि कुमार वैश्य राजेश कुमार राम नारायण हरिश्चंद्र आदि अभिभावकों ने अपने विचार प्रस्तुत किये। अन्त में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. रामकिरण त्रिपाठी ने विद्यालय की उपलब्धियों तथा विद्यालय संचालन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को अभिभावकों के समक्ष साझा किया तथा आये हुये समस्त अतिथियों एवं अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम के अवसर पर समस्त शिक्षक बन्धु एवं शिक्षिकाएं बहने उपस्थित रहे।

धार्मिक सार्वजनिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कार्यवाही

कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश सरकार और अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज भानु भास्कर के निर्देशन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये गए विशेष अभियान के क्रम में धार्मिक सार्वजनिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कौशांबी पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर प्रयोग में लाये जा रहे अवैध लाउडस्पीकर के विरुद्ध दिनांक 27 नवम्बर को प्रातः 5:00 से 7:00 बजे तक चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कौशांबी बृजेश श्रीवास्तव के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र में मानक के विपरीत लाउडस्पीकर ध्वनि यंत्रों पर कार्रवाई की गई है जनपद में कुल 203 धार्मिक सार्वजनिक स्थल है, मानक के विपरीत 56 ध्वनि विस्तारक यंत्र पाए गए 25 लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र की आवाज मानक अनुसार कम करवाये गये 31 ध्वनि विस्तारक यंत्र लाउडस्पीकर धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों से उतरवाए गए तथा सख्त हद्दियात दी गयी है।

अवैध शराब के साथ मंझनपुर पुलिस ने अभियुक्त को किया गिरफ्तार

कौशाम्बी। मंझनपुर थाना क्षेत्र के मलाक सद्दी गांव निवासी पवन कुमार पुत्र छेदीलाल को मंझनपुर पुलिस ने 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के पश्चात न्यायालय के समक्ष पेश किया। मंझनपुर पुलिस के द्वारा अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्त की गिरफ्तारी और विधिक कार्यवाही के बाद अवैध कच्ची शराब निर्माण कताओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

800 ग्राम गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार

कौशाम्बी। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में महवाघाट पुलिस द्वारा उ0नि0 विनोद कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल के साथ गश्त/चैकिंग के कर रहे थे इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों राम पूजन यादव पुत्र श्रीपाल नि0 छिबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट व रिकू यादव पुत्र लालजी यादव नि0 टिकरा थाना महवाघाट जनपद कौशांबी को मवई रैदास पुत्र हनुमान प्रसाद नि0 रायपुर थाना महवाघाट व शैलेन्द्र कुमार पुत्र मान सिंह नि0 हटवा अम्बासपुर थाना महवाघाट को भैरव बाबा मन्दिर रायपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 231/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्तों को मा0 न्यायालय भेजा गया।

चोरी का वाछित अभियुक्त चोरी के रूपयों के साथ गिरफ्तार

कौशाम्बी। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महवाघाट पुलिस बल द्वारा उ0नि0 नन्दू यादव मय हमराह पुलिस बल के साथ गश्त/चैकिंग के कर रहे थे इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों राम पूजन यादव पुत्र श्रीपाल नि0 छिबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट व रिकू यादव पुत्र लालजी यादव नि0 टिकरा थाना महवाघाट जनपद कौशांबी को मवई रैदास पुत्र हनुमान प्रसाद नि0 रायपुर थाना महवाघाट व शैलेन्द्र कुमार पुत्र मान सिंह नि0 हटवा अम्बासपुर थाना महवाघाट को भैरव बाबा मन्दिर रायपुर से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 800

ग्राम गांजा के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार
कौशाम्बी। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में महवाघाट पुलिस द्वारा उ0नि0 विनोद कुमार यादव मय हमराह पुलिस बल के साथ गश्त/चैकिंग के कर रहे थे इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर 02 अभियुक्तों राम पूजन यादव पुत्र श्रीपाल नि0 छिबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट व रिकू यादव पुत्र लालजी यादव नि0 टिकरा थाना महवाघाट जनपद कौशांबी को मवई रैदास पुत्र हनुमान प्रसाद नि0 रायपुर थाना महवाघाट व शैलेन्द्र कुमार पुत्र मान सिंह नि0 हटवा अम्बासपुर थाना महवाघाट को भैरव बाबा मन्दिर रायपुर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के रूप क्रमशः 7800 व 7200 रु0 बरामद किया गया। विधिक कार्यवाही के पश्चात अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संपादक की कलम से

सर्दी में विशेष सावधानी बरतें डायबिटीज के मरीज

सर्दी के मौसम में डायबिटीज के मरीजों को अधिक सतर्क होकर अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सर्दी में ब्रत त्योहार विशेषकर शनिवार बहुतायत से होती है। इस अवसर पर होने वाले पार्टियां उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों के साथ आपकी भोजन योजना को बाधित कर सकती हैं। खराब मौसम में बाहर रहना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना भी कठिन हो सकता है। आपके भोजन और गतिविधि योजनाओं में व्यायाम से आपका रक्त शर्करा बढ़ सकता है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र, सीडीसी ने उष्ण के मौसम में डायबिटीज रोगियों को अपनी रोजगारी को दिनचर्या और खानपान के लिए सचेत किया है। अपनी एडवाइजरी में कहा है नियमित रूप से अपने रक्त शर्करा की जांच करें। यदि आप बीमार हैं या निम्न रक्त शर्करा के लक्षण हैं तो अधिक बार जांच करें। सर्दी आपके हाथों को ठंडा कर सकती है जिससे परीक्षण अधिक दर्दनाक हो सकता है।

आइसीएमआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या 10पी करोड़ से ज्यादा है। वर्ष 2019 में यह संख्या 7 करोड़ थी। मसलन सिर्फ चार साल में 4 करोड़ भारतीय डायबिटीक हो चुके हैं। खानपान और लाइफ स्टाइल से अधिक लोग डायबिटीज का ख्याल रखकर इससे छूटकारा पा सकते हैं। नौद की कमी से डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप रोजाना अच्छी नींद ले रहे हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और डायबिटीज का खतरा कम होता है।

भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। लगभग हर 5 भारतीयों में से 2 भारतीय को डायबिटीज की समस्या है। डायबिटीज में ब्लड शुगर का लेवल हाई होने के कारण त्वचा शुष्क होती है जिससे शरीर में सूजन लाल धब्बे खुजलीएं चकते जैसी चीजें हो जाती हैं। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे हम साइलेंट किलर के तौर पर जानते थे मगर अब वह मेम किलर हो गई है। बच्चे से बुजुर्ग तक हर आयु का व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो रहा है। अस्पतालों और जांच केंद्रों पर डायबिटीज के रोगी बढ़ी संख्या में देखे जा रहे हैं। भारत में हर पांचवें व्यक्ति को इस बीमारी ने घेर रखा है। स्वस्थ व्यक्ति में खाने के पहले ब्लड में ग्लूकोस का लेवल 70 से 100 एमजी डीएल रहता है। खाने के बाद यह लेवल 120.140 एमजी डीएल हो जाता है और फिर धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। रोज सुबह उठकर प्राणायाम व्यायाम व आसन करने से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है।

भारत को डायबिटीज की खान कहा जाता है। डायबिटीज रोग वैश्विक और गैरपसंदीदा महामारी का रूप धारण कर चुका है। भारत में व्यस्त एवं भागमभाग वाली जिंदगीएं खानपान की खराबी तनावपूर्ण जीवन शैलीएं शीतल पेय का सेवन धूम्रपान व्यायाम कम करने की आदत और जंक फूड का अधिक सेवन मोटापा के कारण डायबिटीज का प्रकोप बढ़ रहा है। बच्चों का अब खेलकूद के प्रति रुझान घटना और मोबाइल कंप्यूटर खेलों की तरफ बढ़ना टीवी से चिपके रहना और जंक फूड खाने से बच्चे भी इस रोग के शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज को खत्म तो नहीं किया जा सकता है पर उसे नियंत्रित अवश्य किया जा सकता है। इसके लिए कई इलाज है पर प्राकृतिक इलाज सबसे बेहतर है जिसमें योग की बड़ी महत्ता है। रोज सुबह उठकर प्राणायाम व्यायाम व आसन करने से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है।

विषम परिस्थितियां जीवन की बड़ी परीक्षक

कठिन तथा विषम परिस्थितियों में मनुष्य को अपने मनोबल को सदैव विनम्रता, संयम और साहस के साथ ऊंचा रखना चाहिए। अपने द्वारा की गई मेहनत पर विश्वास एवं निरंतरता रखनी होगी। तब जाकर ही जीवन में सफलता के फल आपके सामने आएंगे। निराशा, हताशा और हीन भावना को कठोर श्रम के बलबूते पर ही विजय प्राप्त की जा सकती है। जीवन में उतार-चढ़ाव, कठिन समय और विषम परिस्थितियां आती ही रहती हैं। इनसे जूझ कर जो आगे बढ़ता है, वह उच्च मनोबल वाला साहसी व्यक्ति होता है। व्यक्ति के जीवन में साहस, उच्च मनोबल ही सफलता की कुंजी है। जिस भी व्यक्ति ने विषमताओं में रास्ता निकलने का साहस करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है वही सफल हुआ है। हमेशा सफलता का मूल आत्मविश्वास, कठिन श्रम और उच्च आदर्श वाले व्यक्ति की प्रेरणा ही सफलता दिलाने वाली होती है।

मनुष्य को कभी भी किसी भी परिस्थिति में मन से हार नहीं मानी चाहिए। उसे सदैव प्रयासत रहकर परिश्रम तथा जुझारु मन से हर परिस्थिति का सामना कर सदैव अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य को अपनी हर हार, हर पराजय से कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए एवं इससे अनुभव प्राप्त कर फिर से खड़ा होने एवं उस पराजित मनोदशा से छूटकारा प्राप्त फिर से लड़ने की ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, यह सफलता का बड़ा मंत्र है। सर्वप्रथम मनुष्य अपने मनोबल से किन्हीं भी परिस्थितियों को जीतने का साहस रखता है, इसीलिए मनोबल मनुष्य की पहली आवश्यकता है। मनोबल ही साहस को जन्म देता है और साहस, आत्मबल को और आत्मबल से ही मनुष्य किन्हीं भी परिस्थितियों से जुझना एवं टकराने की क्षमता पैदा करता है। जब मनुष्य के पास खोने के लिए कुछ ना हो तो वह निश्चित होकर साहस, क्षमता एवं संयम से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है की पीछे पलट कर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, शिवाय आगे बढ़ने एवं सफलता के लिए अग्रसर होने के। मनुष्य का मनोबल एवं हृदय प्रतिज्ञा ही मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। मनुष्य के जीवन का एक तथ्य और भी अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है सकारात्मक सोच, जो उसे हमेशा आगे बढ़ने की ओर उत्साहित करती रहती है। सकारात्मक सोच एवं किसी भी परिस्थिति को अपना निर्वर्णन में लाने की सुनिश्चित योजना मनुष्य में आशाओं को भर देती है एवं परिस्थितियों को चुनौती देने की क्षमता का विकास करती है। यह मनुष्य ही है जो हर परिस्थिति में साहस और मनोबल के दम पर उससे विजय प्राप्त करता है। मनुष्य के जीवन और पशु के जीवन में यही फर्क है कि मनुष्य के पास सोचने के लिए मस्तिष्क होता है और वह उसके सकारात्मक उपयोग के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। मनुष्य मुस्कुराता, हंसता और खिलखिलाता है। जबकि पशु में मुस्कुराने हंसने की क्षमता नहीं होती, और यही कारण है कि मनुष्य ने विषम परिस्थितियों पर सदैव विजय प्राप्त करने का प्रयास किया है, वह काफी हद तक सफलता पाने में सफल ही हुआ है। मनुष्य यदि परिस्थितियों में अन्य प्रतियोगिताओं में, खेल में, या युद्ध में पराजित होकर भी प्रेरणा लेकर पुनः साहस के साथ पुनःतैयार होता है तो वह आने वाले समय में सफलता का सही हकदार भी होता है, क्योंकि उसने पूरी क्षमता, साहस, मनोबल के साथ पराजय को स्वीकार कर के उससे कुछ सीखने का प्रयास किया है। अपनी कमियों को दूर करने की हर संभव कोशिश भी की है। इस तरह वह अगली परीक्षा में जरूर सफल होता है और यही मानव जीवन का सफल अध्याय भी होता है।

चुनाव लोकतंत्र की जीवनी शक्ति है, यह राष्ट्रीय चरित्र का प्रतिबिम्ब होता है, लोकतंत्र में स्वस्थ मूल्यों की स्थापना के लिये चुनाव की स्वस्थता एवं उसकी शुद्धि अनिवार्य है। चुनाव की प्रक्रिया गलत एवं मूल्यहीन होने से लोकतंत्र की जड़ें तो खोखली होती ही है, राष्ट्र भी मूल्यहीनता की ओर अग्रसर होता है। चरित्र-शुद्धि के अभाव में चुनाव शुद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसा ही देखने को मिल रहा है, रेवड़ी-संस्कृति, लोकलुभावन वायदों और गारंटियों का जो कोलाहल सुना जा रहा है, येन-केन-प्रकारेण चुनाव जीतने की होड़ देखने को मिल रही है, जो कालांतर में देश के सशक्त होने, आर्थिक अनुशासन व योग्य जनप्रतिनिधियों के चयन के लिये एक चुनौती बन सकता है।

लगतार चुनावों में मुक्त की रेवड़ियां बांटने की परम्परा ने चुनाव प्रक्रिया एवं उसके आदर्श को धुंधलाया है। यह विडंबना है कि लोग जनप्रतिनिधि की योग्यता, कर्मठता, चारित्रिक उच्चता की प्राथमिकता को दरकिनार करके संकीर्ण सोच के लाभों को प्राथमिकता देने लगे हैं। इस दृष्टि परंपरा से राजनेताओं और जनता का प्रलोभन विस्तार ले रहा है। इस बढ़ती बुराई एवं विकृति को देखकर आंख मूंदना या कानों में अंगुलिया डालना अपनी जिम्मेदारी से पलायन है, इसके विरोध में व्यापक जन-चेतना जगाने की अपेक्षा है। आज चुनाव में बढ़ता भ्रष्टाचार का रावण मानवता एवं चुनाव शुद्धि की सीता का अपहरण करके ले जा रहा है, सब यह अनर्थ होते हुए देख रहे हैं, पर कोई भी जटायु आगे आकर उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है। चुनाव-भ्रष्टाचार के प्रति जनता, राजनीतिक दलों एवं नेताओं का यह मौन, यह उपेक्षाभाव उसे बढ़ायेगा नहीं तो और क्या करेगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़



और मिजोरम में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो चुका है। अब केवल तेलंगाना में मतदान होना शेष है। इन राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान यह बात और उभरकर सामने आई कि मतदाता राजनीतिक दलों के प्रलोभन का शिकार बनने के लिए तैयार है और राजनीतिक दल एवं उनके उम्मीदवार मतदाताओं को ठगने, लुभाने एवं गुमराह करने की होड़ में लगे हैं। ह्यगरीब की थाली में पुलाव आ गया है...लगतता है शहर में चुनाव आ गया है। भारत की राजनीति एवं चुनावों पर ये दो पंक्तियां सटीक टिप्पणी हैं, जो दुःखद एवं विडम्बनापूर्ण हैं। आम तौर पर मतदाता राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में यह नहीं देखता कि उसमें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार, नागरिक सुविधाएं, बिजली-पानी आदि के ठोस वादे किए गए हैं या नहीं? वह अब यह देखता है कि किस दल ने उन्हें क्या-क्या मुफ्त वस्तुएं और सुविधाएं देने के वादे किए हैं। वक्त की जरूरत है कि मतदाताओं को लालीपांप देने, मुक्त की रेवड़ियां बांटने के बजाय उन्हें अवसर दिये जाने चाहिए ताकि वे कालांतर आत्मनिर्भर बन सकें, सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकें, देश के

सशक्त आर्थिक विकास में योग्य भूत बन सकें। भ्रष्ट चुनाव से तो भ्रष्ट नेतृत्व ही मिलेगा, ऐसी भ्रष्ट स्थितियों से देश के आर्थिक विकास में भी भ्रष्टता ही व्यापक होगी, शासन के सामने आर्थिक चुनौतियां खड़ी होंगी। इस तरह मुफ्त की योजनाओं और गारंटियों से सिर्फ हमारा राजकोषीय घाटा ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि भ्रष्टाचार को पनपने का खुला मौका मिलेगा। मतदाता यदि किसी राजनीतिक दल की दूरगामी नीतियों व विकास योजनाओं को नजरअंदाज करके तात्कालिक लाभ को प्राथमिकता देगा तो भविष्य में उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उम्मीदवारों के षडयंत्र एवं मतदाताओं के लोभ हमारी चुनाव प्रक्रिया को भी संकट में डालते हैं। जाहिर बात है कि मुफ्तखोरी की संस्कृति के बूते सत्ता में आने वाला नेता कालांतर में सरकारी संसाधनों के दोहन को अपनी प्राथमिकता बनायेगा। जो धन उसने चुनाव के दौरान बांटा है उसका कई गुना येन-केन-प्रकारेण बांटने के बजाय उन्हें अवसर दिये जाने चाहिए ताकि वे कालांतर आत्मनिर्भर बन सकें, सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में अपनी सार्थक भूमिका निभा सकें, देश के

एक-एक प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने में करोड़ों रूपये व्यय करता है। यह धन उसे पूंजीपतियों एवं उद्योगपतियों से मिलता है। चुनाव जीतने के बाद वे उद्योगपति उनसे अनेक सुविधाएं जायज-नाजायज तरीकों से प्राप्त करते हैं। इसी कारण सरकार उनके शोषण के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पाती और अनेकता एवं भ्रष्टता की परम्परा का सिंचन मिलता है। यथार्थ में देखा जाये तो जनमंत्र व्यक्ति-व्यक्ति के अर्थ, बन कर रह जाता है, जिसके पास जितना अधिक पैसा होगा, वह उतने ही अधिक वोट खरीद सकेगा। ऐसे में ईमानदार, योग्य एवं कर्मठ लोगों का राजनीति में आने का रास्ता ही बन्द हो जायेगा। चुनावों में लगातार बढ़ रही भ्रष्टता की नाजुक स्थिति में व्यक्ति-व्यक्ति की जटायुवृत्ति को जगाया जा सके, चुनावी भ्रष्टाचार के विरोध में एक शक्तिशाली समवेत स्वर उठ सके और उस स्वर को स्थायित्व मिल सके तो लोकतंत्र की जड़ों को सिंचन मिल सकता है और ऐसे हालातों में भी हमारा अमृत-काल भी चुनाव-प्रक्रिया के लिये भी अमृतमय बन सकता है। इस बार पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त पेशाकश के मामले में होड़ करके

राजनीतिक दल एक दूसरे को मात देने में लगे रहे। चुनाव में रेवड़ियों की इस बारिश के राजनीतिक एवं आर्थिक, दोनों निहितार्थ हैं। साथ ही यह उन राजनीतिक दलों के दोहरे रवैये को भी जाहिर करता है जो मुफ्त पेशाकश के मामले में दूसरे दलों को तो आईना दिखाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए खुद उनका सहारा लेने से कोई संकोच नहीं करते। यह दोहरा रवैया भाजपा के चरित्र में भी समाया है। सही मायनों में मुफ्त के उपहारों की हमेशा बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। यह हमारे लोकतंत्र की भी विफलता है कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी हम अपने लोकतंत्र को इतना सजग व समृद्ध नहीं बना पाये कि मतदाता अपने विवेक से अपना दूरगामी भला-बुरा सोचकर मतदान कर सके। अतीत के अनुभव बताते हैं कि जिस भी राज्य ने मुफ्त खाद्यान्न, पानी, बिजली व सस्मिडी बांटी है उसकी अर्थव्यवस्था भविष्य में चरमराई ही है। सही मायनों में मुफ्त कुछ नहीं होता, वह करदाताओं की पसीने की कमाई से पैदा होता है। देश को कल्याणकारी नीतियों की जरूरत है, लेकिन वह आर्थिक अनुशासन और राजकोषीय विवेक पर आधारित होना चाहिए।

कोई भी दल यह बताने को तैयार नहीं कि वे मुफ्त वस्तुएं जैसे कि स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल, सोना, मुफ्त बिजली-पानी-बस यात्रा समेत अन्य वस्तुएं और सुविधाएं देने के जो वादे कर रहे हैं उन्हें पूरा कैसे करेंगे? वास्तव में यह वह सवाल है जो मतदाताओं को करना चाहिए। वह यदि यह सवाल नहीं करता तो इसका कारण लालच और फौरी लाभ ही है। लेकिन मतदाताओं का यह लाभ का दृष्टिकोण समूचे लोकतंत्र के लिये कितना नुकसानदायी है, इस पर चिन्तन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि रेवड़ियां बांटने का खेल देश में पहले नहीं होता था, लेकिन आज जिस पैमाने पर हो रहा है, वह हर देशभक्त की चिंता का विषय होना चाहिए। कहीं न कहीं, मुफ्त की गारंटियों का यह खेल जवाबदेह प्रशासन व आर्थिक स्थिरता पर कालांतर गहरी चोट करेगा। वहीं ये गतिविधियां एक जिम्मेदार लोकतंत्र पर सबालिया निशान लगाती हैं। यह बड़ा सत्य है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से हमारी अर्थव्यवस्था व विवेकशील सुशासन पर घातक असर पड़ता है। अंततः रेवड़ी संस्कृति का आर्थिक दबाव सकारात्मकसाधनों पर पड़ता है। राज्यों के आर्थिक संसाधन सीमित हैं। ऐसे में बांटा गया धन कालांतर में हमारे बुनियादी ढांचे व विकास परियोजनाओं के लिये निर्धारित धन में कटौती करता है। जिससे समग्र एवं संतुलित विकास का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता। निश्चित रूप से समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक संबल दिया जाना चाहिए। लेकिन मुफ्त रेवड़ियां बांटने से वह अकर्मण्य एवं कामगार होंगे, जरूरत ठोस आर्थिक विकास व रोजगार के अवसर सृजन की होनी चाहिए।

(लालित गर्ग)
लेखक, पत्रकार, स्तंभकार
ई-253, सरस्वती कुंज
अपार्टमेंट 25 आई. पी.
एक्सटेंशन, पटवड़गंज, दिल्ली-

मध्यम कद के शहरों का स्मार्ट सिटी में परिवर्तन, यथार्थ या केवल हवा की बातें

बड़े विदेशी शहरों के अनुरूप भारत में भी ऐसे बड़े शहरों की जरूरत महसूस हो रही है, जहां के निवासियों को सभी जरूरतों को त्वरित व तेजी से पूरा किया जा सके। ऐसे शहरों को स्मार्ट सिटी का नाम दिया जा रहा है। जिस शहर में सभी गुणवत्ता पूर्ण आम लोगों को सुविधाएं कम सेवा मूल्य पर और आसानी से उपलब्ध हो सके। जहां लोगों के जीवन यापन के तरीके इतने सुलभ व संतुलित हो की धूल प्रदूषण से मुक्त सड़कें, पानी, बिजली आसानी से उपलब्ध हो सके और वहां पर घर पहुंचे घर में बैठे-बैठे इंटरनेट और सोशल मीडिया पर क्षण भर में सभी प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। आम नागरिक जन सुविधाओं से स्वतंत्रता के बाद अब तक जुड़ रहा है, तो उसका त्वरित निराकरण संचार माध्यमों से हो सके। ऐसे स्मार्ट शहर की स्थापना किया जाना केंद्र सरकार का लक्ष्य बन गया है। भारत की राज्यों में जनसंख्या की विशालता को देखते हुए और भारत के मेट्रोपॉलिटन शहरों की संघनता और जनसंख्या को दृष्टिगत रखे स्मार्ट सिटी में बदला जा सकता है? यदि सरकार आदि आम नागरिकों का दृढ़ मिश्रण संकल्प हो, और आपसी सहयोग तथा सामंजस्य बेहतर तरीके से हो जाए तो भारत में स्मार्ट सिटी की परिकल्पना यथार्थ रूप भी ले सकती है। यदि दूसरे तरीके से और दूसरे नजरिए से इस तथ्य को देखा जाए तो स्मार्ट सिटी में पर्याप्त बिजली, पानी, भोजन, पर आदि की उपलब्धता के साथ-साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, यातायात की सुविधाएं भी आसानी से प्राप्त हो जाएं और आरामदायक जीवन से संबंध सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। ऐसी स्मार्ट सिटी यदि भारत में बन जाती है, तो भारत से ज्यादा विकासवान दूसरा भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे शहर की परिकल्पना केवल दृढ़ संकल्प और सार्थक मेहनत के प्रतिफल के रूप में ही की जा सकती है। देश के



प्रधानमंत्री ने पूर्व स्वतंत्रता दिवस पर भारत में 100 से ज्यादा शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की है। और इसके लिए उन्होंने 9 हजार करोड़ रुपयों का बजट का प्रवधान भी रखा है। वैसे तो प्रधानमंत्री के इस स्वप्निल विचारों को मूर्त रूप देने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा एक पशु मैनुअल जारी किया गया है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में मूर्त रूप लेगी। देश के 40 लाख से अधिक आबादी वाले 9 शहरों, 10 लाख से 40 लाख आबादी वाले 44 शहरों, 5 लाख से 10 लाख आबादी वाले 20 शहरों, सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के अंतर्गत आने वाले लगभग 37 शहर सहित पर्यटन व धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 15 शहरों को स्मार्ट सिटी में पर्याप्त बिजली, पानी, भोजन, पर आदि की उपलब्धता के साथ-साथ स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, मनोरंजन, यातायात की सुविधाएं भी आसानी से प्राप्त हो जाएं और आरामदायक जीवन से संबंध सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे। ऐसी स्मार्ट सिटी यदि भारत में बन जाती है, तो भारत से ज्यादा विकासवान दूसरा भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे शहर की परिकल्पना केवल दृढ़ संकल्प और सार्थक मेहनत के प्रतिफल के रूप में ही की जा सकती है। देश के

स्मार्ट शहरों को विध्वंसक कार्रवाईयों और चोरी डकैती आदि से बचाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीसीटीवी की निगरानी में 24 घंटे रखा जाना होगा इसके साथ ही संतुलित जीवन के लिए पर्यावरण संतुलन भी अत्यंत आवश्यक होगा। देश में बड़ी संख्या में स्मार्ट सिटी स्थापित करने में निरसदेह शहरों को विकसित देशों की ओर अग्रसर होने में बहुत मदद मिलेगी। देश में नए सिरे से रोजगार के अवसर भी खोजा जाएगा परंतु इस नई परियोजना को मूर्त रूप देने में कई विघ्न बाधाएं एवं चुनौतियां भी हैं। जनता निर्विवाद रूप से कठिनाइयों से निपटने के बाद ही सपनों के शहर को बस बसाना आसान होगा। इन प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए शहरी तथा ग्रामीण कानूनों में भी परिवर्तन आवश्यक होगा। यदि देश का प्रत्येक नागरिक सरकार के अधीन प्रोजेक्ट में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देकर अपना योगदान दे, तो निश्चय ही आने दो दशकों में भारत में सैकड़ों स्मार्ट सिटी निर्मित हो सकेगी। और आम नागरिकों को जन सुविधाओं के साथ भारत एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाएगा।

संजीव ठाकुर, स्तंभकार, चित्तक, लेखक, रायपुर छत्तीसगढ़, 9009 415 415,

डिजिटल शिक्षा से नोनीहालों का भविष्य तलाशता भारत,

भारत में विभिन्न विभागों में डिजिटलाइजेशन शुभ संकेत की तरह दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर शिक्षा जगत तथा बालक बालिकाओं के की डिजिटलाइजेशन एक वरदान की तरह होगा। कंप्यूटर तथा इंटरनेट के युग में आने वाले बच्चों की पीढ़ी को इसमें पारंगत होना अत्यंत आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर भी बच्चों को प्रतिस्पर्धा हेतु इस विधा में विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी, तब जाकर हम रोजगार मूलक हो पाएंगे। वर्तमान में पिछले दो वर्षों से सबसे ज्यादा कोविड-19 के संक्रमण ने जीवन मृत्यु के बाद जिस क्षेत्र का सबसे ज्यादा नुकसान किया है वो शिक्षा जगत के क्षेत्र का ही है। तीन वर्षों से स्कूल कॉलेज लगातार बंद और खुलते आ रहे थे। मूल शिक्षा खासकर बच्चों के लिए समय बेकार ना जाए इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा का प्रावधान देश में किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा कंप्यूटर आधारित नेटवर्क से संलग्न होती है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी तथा शिक्षक वीडियो के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा लगातार लाभांशित भी होते हैं। इसमें शिक्षक आभासी तौर पर उपस्थित होते हैं एवं आभासी स्तर पर ही शिक्षा प्रदान की जाती है। आज ऑनलाइन शिक्षा लाइव वीडियो क्लासेस, रिकॉर्डिंग वीडियो क्लासेस, लाइव ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन टेस्ट और घर पर पी,डी,एफ आधारित ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा में अनेक लाभ के साथ हानियों का भी समावेश है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कक्षाओं का शिक्षण अधिक रोचक कथा संवादात्मक बनाया जा रहा है, जिससे बच्चे इस पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षक कोई भी कहीं भी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यात्रा के दौरान या किसी कारणवश अवकाश लेने पर छूटे हुए विषयों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज के प्रोत्साहन से विद्यार्थी जग-जग जान की प्राप्ति कर सकते हैं, साथ ही शिक्षकों पर सक्षम, अद्यतन न होने और शिक्षकों की कमी के जो आरोप लगते हैं उसे भी दूर किया जा सकता है। वैसे भी भारत जैसे विशाल देश में पैदा होने वाली कालिज नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प से स्कूल कॉलेज कम होने का दबाव धीरे-धीरे कम होने लगेगा। ऑनलाइन शिक्षा पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी है, करीना संक्रमण की दृष्टि से लाभकारी है, और आर्थिक रूप से भी आवागमन के खर्च से बचत करूँ में देखा जा रहा है। ऑनलाइन विद्यार्थी स्वयं शिक्षा के स्तर को समझेंगे और यह भी समझेंगे कि उन्हें क्या पसंद है और किस क्षेत्र में उन्हें आगे जाकर शोध करना है या बड़ी डिग्री हासिल करना है। इससे ज्ञान की विविधता भी प्राप्त होती है। समय की बचत के साथ इसमें आर्थिक लाभ भी होता है। तीव्रता और गहनता की दृष्टि से ऑनलाइन शिक्षा काफी महत्वपूर्ण तथा प्रभावकारी है। ऑनलाइन शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सूचनाएं एवं डाटा संग्रहण तीव्रता से होता है तथा सृजनशीलता की विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ विवेकविद्यालय विद्यालय और शिक्षकों की उपलब्धता भी छात्रों की मदद के लिए सदैव रहती है। दूसरी तरफ ऑनलाइन शिक्षा से कई समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। ऑनलाइन शिक्षा नेटवर्क कंप्यूटर पर आधारित होती है इसके लिए कई उपकरणों की जरूरत होती है जो काफी आर्थिक रूप से महंगे होते हैं। भारत जैसे देश में ऑनलाइन शिक्षा सबके लिए संभव नहीं है। विशाल जनसंख्या वाले देश में हर जगह कंप्यूटर नेटवर्क और मोबाइल की उपलब्धता इतनी आसान नहीं है, जितनी की योगदान बनाने समय कल्पना की गई थी। बच्चों की रचनात्मक क्षमता का भी इसमें नुकसान होता है क्योंकि पाठ्यक्रम से संबंधित सारी जानकारियां किताबों में ना खोजकर इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। उनमें जिज्ञासा का अभाव पैदा होने लगता है एवं रचनात्मकता भी खत्म होती है। ऑनलाइन शिक्षा में छोटे बच्चों को शारीरिक व्यायाम एवं शारीरिक कसरत का अभाव पैदा होने लगता है, छोटे बच्चों को खेलकूद वाली शिक्षा उनकी शारीरिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर दी जाती है पर ऑनलाइन शिक्षा में ऐसा संभव नहीं है। स्कूल कॉलेजों में निर्धारित शिक्षा कक्षाओं में वैकल्पिक शिक्षकों के दबाव में अनुशासन में दी जाती है, जिससे एक साम्यता छात्रों में बनी रहती है पर ऑनलाइन शिक्षा में छात्र किसी भी नियम से न बंद कर खुलकर इंटरनेट का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। भारतीय तथा विदेशी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा अत्यंत तनावपूर्ण होती है।

कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, सभी मनोकामनायें होती हैं पूर्ण

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। कार्तिक पूर्णिमा पर मंदाकिनी किनारे श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाकर भगवान कामतानाथ की पंचकोशी परिक्रमा लगाई।

सोमवार को मप-उप, छत्तीसगढ़, हरियाणा व अहमदाबाद से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने यहाँ आये।

मान्यता है कि भगवान श्रीराम वनवास काल में 11 वर्ष 11 महीना 11 दिन बिताए थे। भारत मंदिर के महंत जीवनदास ने बताया कि



मंदाकिनी में डुबकी लगाते श्रद्धालु।

कामतानाथ की परिक्रमा करने से श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चित्रकूट 84 कोस में बसा है। यहाँ पर सभी देवता ऋषि आकर तपस्या की है। यहाँ पर भगवान राम के आने के पहले ब्रह्मा विष्णु महेश आकर मंदाकिनी किनारे पूजन अर्चन किया।

ब्रह्मा जी ने शिवलिंग स्थापित किया था। मंदाकिनी नदी का उद्गम अत्रि पत्नी अनसूया के तपोबल से हुआ था। मंदाकिनी नदी चित्रकूट में है, एक स्वर्ग लोक में है। इसमें स्नान करने से जन्म-जन्म के पाप मिट जाते हैं। राम-लक्ष्मण-सीता वनवास काल में इसी

मंदाकिनी नदी में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते थे। मंदाकिनी किनारे राष्ट्रीय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। श्रद्धालुओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश प्रशासन द्वारा पूरी तरह से व्यवस्थाएं मुस्तैद की गई हैं। परिक्रमा मार्ग में लगभग 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। एक कंट्रोल रूम बनाया है। जहाँ पर पांच लोग बैठकर निगरानी करते हैं। मंदाकिनी किनारे भी लगभग 25 कैमरे लगाए हैं। वहाँ दूसरा कंट्रोल रूम बनाया गया है।

यातायात शिविर में वाहन चालकों की हुई जांच

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। यातायात माह पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देश पर सड़क सुरक्षा जागरूकता में एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी व सीओ यातायात राजकमल की मौजूदगी में प्रभारी यातायात निरीक्षक मनोज कुमार की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से वाहन चालकों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण कराया।

सोमवार को यातायात निरीक्षक मनोज कुमार ने कहा कि परिजनों से यातायात नियमों का पालन करने को कहें। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग एवं चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। नशे व नींद में वाहन न चलाए, वाहन चलाते समय फोन का प्रयोग न करें। तेज रफ्तार में वाहन न



शिविर में जांच करते डॉक्टर।

चलाए। निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलायें। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाए। 18 वर्ष आयु पूरी होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य बनवायें।

साइकिल व वाहन से स्कूल आते-जाते समय हमेशा बायीं ओर चलें, सावधानी से वाहन चलाए। इस मौके पर तमाम वाहन चालकों की जांच की गई।

अतीक-अशरफ के हत्यारों पर रखें खास निगरानी: डीएम

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द व पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर प्रयागराज के माफिया डान अतीक व अशरफ के हत्यारों को कड़ी निगरानी में रखने के निर्देश जेल अधीक्षक को दिये।

सोमवार को डीएम-एसपी ने जिला कारागार के निरीक्षण दौरान सीसीटीवी कैमरा संचालन, बैक नंबर 21-22, महिला बैस्क व हाई सिक्वोरिटी बैक देखी। उन्होंने कैदियों से खानपान आदि की जानकारी ली। बैकों की तलाशी



कारागार का निरीक्षण करते डीएम-एसपी।

करवाई। अधीक्षक जिला कारागार को निर्देश दिए कि सीसीटीवी कैमरों का संचालन सही ढंग से होता रहे, इसका विशेष ध्यान दें। मैनुअल अनुसार नाशता-भोजन कैदियों को मिलना चाहिए। साफ-सफाई का विशेष ध्यान दें। ठंड को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर लें, ताकि कैदियों को कोई समस्या न हो।

इस दौरान उन्होंने हाई सिक्वोरिटी बैक में कैद अतीक-अशरफ के हत्यारों पर खास निगरानी रखने के निर्देश दिये। इस मौके पर जेल अधीक्षक जिला कारागार शशांक पांडेय, उप कारापाल रजनीश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक के पीआरओ गुलाब त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

संचालक ने चुपके से निकलवाई 60-70 बोरी खाद

मानिकपुर/चित्रकूट। मानिकपुर

तहसील के साधन सहकारी समिति हल्दीडाड़ी के संचालक की दबंगई रविवार को सामने आई। रविवार को हल्दीडाड़ी साधन सहकारी समिति के संचालक ने एक मुश्त 60-70 बोरी खाद समिति से निकाल दिया। आसपास के किसानों में रोष व्याप्त है। गरीब किसान एक-एक बोरी खाद को परेशान हैं। गरीब किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही। इन दिनों खाद को लेकर हर सोसायटी में मारामारी चल रही है। किसानों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। सोसायटी संचालक गोलमाल करने से बाज नहीं आ रहे। ग्रामीणों के अनुसार रविवार को सवेरे छह बजे व दोपहर तथा शाम को चुपके से सोसायटी का गेट खोलकर 60-70 बोरी खाद निकलवाई गई।

जांच में 142 वाहनों से वसूले 243000



वाहनों की जांच करते टीएसआई।

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। यातायात माह पर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देश पर यातायात प्रभारी मनोज कुमार की टीम ने कस्बा पहाड़ी में दोपहिया/चारपहिया वाहनों की जांच में 142 वाहनों का ई-चालान कर

243000 टुमराना वसूला। कृषि कार्य के ट्रैक्टर-ट्राली पर रिफ्लेक्टर लगाये।

सोमवार को यातायात प्रभारी मनोज कुमार ने ट्रांसपोर्टर्स, ट्रक, टैप्पी, रिक्शा चालकों के साथ खुली बैठक की। उन्हें यातायात नियमों

के प्रति जागरूक किया। यातायात नियम सबकी सुरक्षा को बनाये गये हैं। इसलिये वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें। कस्बा पहाड़ी में जांच दौरान 142 वाहनों से 243000 का ई-चालान किया।

अज्ञात वाहन की ठोकर से फौजी की मौत

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। खेत से घर लौट रहे सेवानिवृत्त फौजी को हाईवे में अज्ञात वाहन की ठोकर लगने से वह घायल हो गये। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार बाद गंभीर दशा में प्रयागराज रेफर कर दिया। रास्ते में उनकी मौत हो गई।

ये हादसा मऊ थाना क्षेत्र के छिवलहा गांव के पास रविवार देर शाम हुआ। छिवलहा के उमाकांत वर्मा ने बताया कि पिता मुन्नीलाल

फौजी (62) सेवानिवृत्त फौजी थे। रविवार देर शाम वह खेत से घर लौट रहे थे। वह झांसी-मिजापुर राजमार्ग स्थित बेलहा कुआं के

झांसी-मिजापुर राजमार्ग स्थित बेलहा कुआं के पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी।

पास पहुंचे तो अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी।

घायल होते ही चालक वाहन लेकर भाग गया। बेहोशी दशा में

स्वास्थ्य केंद्र मऊ में भर्ती कराया। डॉक्टरों के प्रयागराज रेफर करने पर ले जाते समय मृत्यु हो गई। हादसे बाद परिजनों में कोहराम मच गया। चार भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके एक पुत्र व एक पुत्री हैं। पत्नी नथिया देवी का रो-रोकर हाल बेहाल है।

मृतक के पुत्र उमाकांत ने थाने में अज्ञात वाहन के खिलाफ तहरीर दी। थाना प्रभारी राजेश कुमार द्विवेदी ने बताया कि अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तलाश जारी है।

पाक्सो-एससी-एसटी एक्ट का वार्टी दबोचा

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देश पर वार्टी/वांछित की गिरफ्तारी को जारी अभियान में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा दीपेन्द्र कुमार सिंह की अगुवाई में अपराध निरीक्षक अंजनी कुमार सिंह की टीम ने घर में चुपकर छेड़छाड़ व गाली-गलौज तथा जान से मारने की धमकी व पॉस्को तथा एससी-एसटी एक्ट के वार्टी जमील पुत्र हमीद निवासी सरधुवा को गिरफ्तार किया। टीम में अपराध निरीक्षक अंजनी कुमार सिंह, दरोगा देवीदीन बुन्देली व सिपाही राहुल पुरी शामिल रहे।

तीर्थों से लौटे साधुओं का बुंदेली सेना ने किया स्वागत

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। साइकिल से देशभर के तीर्थों के भ्रमण पर गए निर्मोही अखाड़ा के दो साधु 15 हजार किमी की यात्रा पूरी कर धर्मनगरी लौटे। साधुओं के लौटने पर बुंदेली सेना ने मत्तजेंद्रनाथ मंदिर में साधुओं का स्वागत किया। उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया। कंबल, शाल, रामनामी भेंट किये।

सोमवार को बुंदेली सेना जिलाध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि निर्मोही अखाड़ा के दो साधु छविरामदास व रामदास 25 मार्च को भारत भ्रमण पर गए थे। लगभग साढ़े आठ महीने उन्होंने साइकिल से 15 हजार किमी की यात्रा की। भारतवर्ष के 12 ज्यौलिंग व हिन्दुओं



साधुओं का स्वागत करती बुन्देली सेना।

के चार प्रमुख तीर्थों बदीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम समेत सैकड़ों तीर्थों के दर्शन किये। देश के एक दर्जन से ज्यादा राज्यों से होकर साइकिल यात्रा गुजरी।

रविवार की देरशाम भारत के सभी तीर्थों की साइकिल यात्रा पूरी कर दोनो साधु धर्मनगरी पहुंचे। उन्होंने भक्तकूप के दर्शन किये। कामदगिरि की परिक्रमा

लगाई। मत्तजेंद्रनाथ जी की आरती में शामिल हुए। आरती बाद मंदिर में दोनो साधुओं का बुंदेली सेना ने पुजारी विपिन बिहारी की अगुवाई में स्वागत किया। उन्हें फूल-मालाएं पहनाई। रामनामी पटका समेत शाल-साफी वीपी पटल ने कंबल, अंकित पहारिया ने भेंट किए। मिष्ठान का डिब्बा अतुल सिंह ने देकर प्रणाम किया। दोनो साधुओं के साथ जय श्री राम के जयकारे लगाए। यात्रा पूरी कर दोनो साधु निर्मोही अखाड़ा पहुंचे। पुजारी विपिन बिहारी महाराज, अंकित पहारिया, वीपी पटल, अतुल सिंह टाडगर, पुनीत तिवारी, गुलजारीलाल, सुरेंद्र सिंह शेर आदि मौजूद रहे।

17 से 25 तक टूनामेंट की बनाई रुपरेखा

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की स्मृति पर नेशनल क्रिकेट टूनामेंट पुरुष-महिला चित्रकूट चैलेंज कप 2023 के आयोजन बाबत आयोजक चित्रकूट स्पोर्ट्स क्लब एवं दीनदयाल शोध संस्थान ने आयोजन समिति के पदाधिकारियों की बैठक दीनदयाल शोध संस्थान के राष्ट्रीय संगठन सचिव अभय महाजन के निर्देश पर चित्रकूट इंटर कॉलेज क्वार्टर में की।

सोमवार का हुई बैठक की अध्यक्षता चित्रकूट स्पोर्ट्स क्लब के संरक्षक/पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र ने की। सर्वसम्मति से तय हुआ कि चित्रकूट में 17 से 25 दिसंबर तक



टूनामेंट की रुपरेखा बनाते आयोजक।

चित्रकूट चैलेंज कप होगा। क्लब के मुख्य संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक गुप्ता, आयोजन समिति एवं कोऑर्परेटिव बैंक अध्यक्ष पंकज अग्रवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा चंद्र प्रकाश खरे, वरिष्ठ समाजसेवी रामबाबू गुप्ता, पूर्व भारतीय हॉकी

कोच प्रेम शंकर शुक्ला, सदर सेवा संघ ट्रस्ट के खेल प्रशिक्षक तुषारकांत शास्त्री, वरिष्ठ खिलाड़ी महेंद्र अग्रवाल, क्लब संरक्षक राम मनोहर वर्मा, अमित श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। क्लब के मुख्य संरक्षक/पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्रा ने

टूनामेंट में शामिल हो रही टीमों के आवास-भोजन व्यवस्था पर ध्यान देने को कहा। क्लब संरक्षक अशोक गुप्ता ने टूनामेंट के बेहतर संचालन के सुझाव दिये। समिति अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने टूनामेंट के व्यापक प्रचार-प्रसार करने की बात कही। आमजनता का जुड़ाव हो, आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने एवं सहयोग पर जो दिया। बैठक में चित्रकूट स्पोर्ट्स क्लब के सर्वश्रेष्ठ निगम, कमलर इस्लाम, राजकरम वर्मा, अशोक सेन, मनीष वर्मा, शशि भूषण सिंह समेत पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आयोजन समिति के आभार क्लब के संयोजक कमलेश कुमार आर्य ने जताया।

जनरथ और बोलेरो की टक्कर में एक ही परिवार के 5 की मौत, मध्य प्रदेश से अस्थि विसर्जन

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। जिले में एक बोलेरो और जनरथ बस की टक्कर में 2 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 5 की दर्दनाक मौत हो गई है।

जबकि आधा दर्जन के करीब लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में से 4 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। 2 जिला अस्पताल में भर्ती हैं। आशंका है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश के पन्ना

से अस्थि विसर्जन करने परिवार प्रयागराज आया हुआ था। वापस लौटते वक चित्रकूट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग के बगैरही गांव के पास बोलेरो अनियंत्रित हो गई और बस में जा टकराई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह आमने-सामने की टक्कर इतनी भयानक थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और बोलेरो से छिड़कर लोग सड़कों पर गिर गए।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो से छिड़कर लोग सड़कों पर गिरे। 2 की मौके पर, जबकि 2 की जिला अस्पताल ले जाते समय मौत

हो गई। वहीं 1 ने रामनगर अस्पताल में दम तोड़ा। जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मरने वाले सभी लोग बोलेरो में सवार थे। वहीं बस में बैठे दो यात्रियों को भी मामूली चोट आई है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद दूसरी बस से रवाना किया गया है।

चित्रकूट एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया, मरने वालों में 2 पुरुष और 1 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। बोलेरो में दो परिवारों के लोग बैठे थे। इनके परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दे दी गई है। शवों की पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया

है। बस और कार को कब्जे में ले लिया गया है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे मोडियार्कमी को एक युवक ने बताया कि बोलेरो अचानक गलत साइड आ गई, जिससे भिड़त हो गई। कार की स्पीड तेज थी। ऐसा लग रहा था, नियंत्रण खोने की वजह से ये हादसा हुआ है। कार के शीशों को काटकर शवों को बाहर निकाला गया है। आगे बैठे लोगों की हालत तो बहुत खराब थी। सभी के चेहरे खराब हो गए थे। जो पीछे बैठे थे, वो भी गंभीर घायल थे।

तेज ध्वनि से लाउडस्पीकर बजाने पर होगी कार्यवाही : सीओ सिटी

17 स्थानों से हटवाये लाउडस्पीकर

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। डीजीपी के निर्देश पर सोमवार को सवेरे मस्जिदों में लाउडस्पीकर जांच अभियान चला। मुख्यालय समेत पूरे जिले में 35 मस्जिदों में पुलिस अधिकारियों ने लाउडस्पीकर की ध्वनि चेक की। 17 स्थानों पर मानक के विपरीत लाउडस्पीकर मिले। सात जगह लाउडस्पीकरों को उतरवाया गया। अन्य जगह निर्धारित मानकनुसार संचालित करने के निर्देश दिए। सोमवार को सवेरे पांच बजे से सात बजे तक पुलिस ने अभियान चलाया। एसपी वृंदा शुक्ला, एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी, सदर एसडीएम



मस्जिद में लाउडस्पीकर की जांच करती पुलिस।

सौरभ यादव, सीओ सिटी हर्ष पांडेय समेत कर्बी कोतवाली के क्राइम इन्स्पेक्टर आशुतोष तिवारी ने मुख्यालय व आसपास की कई मस्जिदों में लाउडस्पीकरों बाबत जानकारी ली। मानिकपुर, मऊ, राजापुर तहसील क्षेत्र की मस्जिदों में भी पुलिस अधिकारी लाउडस्पीकर जांच करने पहुंचे। चार सीओ जांच में लगाए गए। कुल 35 स्थानों पर

लाउडस्पीकर जांचे गये। 17 जगह मानक के विपरीत लाउडस्पीकर मिले, दस जगह मानक अनुरूप मिले। सात जगह लाउडस्पीकर उतरवाये गये। बिना अनुमति के ही लाउडस्पीकर लगे थे। सख्त हिदायत दी गई कि शासन के निर्देशानुसार लाउडस्पीकर की आवाज धीमी रखें। धर्मनगरी के रामघाट व परिक्रमा पथ पर जिन दुकानदारों की दुकानों व नाविकों के नावों में तेज ध्वनि से लाउडस्पीकर बजाते हैं, उन्हें भी धीमा बजाने की चेतावनी दी गई। सीओ सिटी हर्ष पांडेय ने कहा कि तेज ध्वनि से लाउडस्पीकर न बजाए, वरना कानूनी कार्यवाही होगी।

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। जनवादी महिला समिति की जिलाध्यक्ष का पूनम ने कहा कि संविधान की प्रतियां जिन लोगों ने जलाई थीं, उन्हीं के मानस वंशजों ने सत्ता के मद में चूर होकर संविधान बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। उन्होंने 26 जनवरी की जगह 26 नवम्बर को भारतीय संविधान दिवस मनाने के कारण भी बताये। रविवार को देर शाम जनवादी महिला समिति की जिलाध्यक्ष का पूनम ने संविधान दिवस पर महिलाओं से कहा कि संविधान बचाने को आगे आना होगा। अन्यथा संविधान की प्रतियां जलाने वाले मानस संतान संविधान को



नारेबाजी करती जनवादी महिला समिति की सदस्य।

बदलकर मनुस्मृति लागू कर साम्प्रदायिकता बढ़ाने का काम करेंगे। इससे दबे-कुचले लोगों को दास बनाकर गुलामी की जंजीरों में जकड़ देंगे।

उन्होंने डॉ भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कहा कि आज ही के दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। दुनिया के सबसे बड़े संविधान कहने का

अधिकार मिला। आज ही के दिन संविधान में मौलिक अधिकार दिये गये। भारतीय संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। बाबा साहेब अम्बेडकर व सहकर्मियों ने बनाया था। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को मंजूरी दी थी। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम

गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। इस मौके पर कौशल्या, रुखमिया, शीला, रेखा, रानी, बिट्टी, दीक्षा, काजल, मालती, सरोजा, प्रेमकली, बेदमतिता, पांचनिया, निर्मला, कुसुमा, सुमन, इतवरिया, संवरिया, भूरी, संवला, कामनी, सुनैना, चिरंजी, सोनू, नीलू आदि मौजूद रहीं।

एलआईयू की संयुक्त टीम ने कार्तिक पूर्णिमा पर की जांच

अखंड भारत संदेश

चित्रकूट। पुलिस अधीक्षक श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देश पर एएसपी चक्रपाणि त्रिपाठी व पुलिस उपाधीक्षक एलआईयू अनुज मिश्र की अगुवाई में कार्तिक पूर्णिमा पर डॉंग स्वर्णवद एलआईयू की संयुक्त टीम ने सुरक्षा व सतर्कता के महेंदर परिक्रमा मार्ग, रामघाट पर संदिग्धों व संदिग्ध वस्तुओं की जांच की। जांच में कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली।

लेस्वोस द्वीप में मालवाहक जहाज डूबा, चार भारतीयों समेत 14 लोग लापता

एथेंस

लेस्वोस द्वीप के पास तूफानी हवाओं के कारण एक मालवाहक जहाज डूब गया। जहाज में सवार चार भारतीयों समेत 14 लोग लापता हैं। एक ग्रीक तट रक्षक ने रिवार को कहा कि लापता लोगों के लिए बड़ा बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक नौसेना के एक हेलीकॉप्टर ने चालक दल के एक सदस्य का रेस्क्यू किया है। पांच मालवाहक जहाज, तीन तट रक्षक जहाज, वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर और साथ ही एक नौसेना फ्रिगेट बचाव कार्य में जुटे हुए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक मालवाहक जहाज में चालक दल के 14 सदस्य थे और उस पर नमक लदा हुआ था। यह जहाज मिन्न के देखेइला से इस्तांबुल की ओर रवाना हुआ था। चालक दल के सदस्यों में दो सीरियाई नागरिक, चार भारतीय और आठ मिन्नवासी शामिल हैं।

आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को लंदन में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया



लंदन

आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को यहां के ओल्ड बिलिंगसेट में बुकर पुरस्कार-2023 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। 46 वर्षीय लिंच ने यह पुरस्कार लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पछड़कर अपने नाम किया।

लंदन से छपने वाले अखबार द टाइम्स के अनुसार लिंच ने प्रॉफिट सॉन्ग में निरंकुशता की चपेट वाले आयरलैंड की तस्वीर पेश की है। यह उपन्यास एक परिवार की कहानी पर केंद्रित है, जो लोकतांत्रिक मानदंड खत्म होने की त्रासदी से जूझता है। लिंच ने 50 हजार पाउंड इनामी राशि वाला यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने के बाद कहा, हमें आधुनिक अराजकता को देखने की कोशिश की। मैंने पश्चिमी लोकतंत्र में अशांति को देखने की कोशिश की। सीरिया की समस्या, शरणार्थी संकट का पैमाना और पश्चिम की उदासीनता भी महसूस की। लिंच यह पुरस्कार जीतने वाले आयरलैंड के पांचवें लेखक हैं। इससे पहले आयरलैंड के आयरिस मर्डोक, जॉन बैनविले, रॉडी डॉयल और ऐनी एनराइट ने यह पुरस्कार जीत चुके हैं। द टाइम्स के अनुसार ओल्ड बिलिंगसेट में आयोजित समारोह में श्रीलंका के लेखक शेहान करुणातिलका ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। पिछले साल करुणातिलका को उनके उपन्यास द सेवेन मूस ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया था। इस साल बुकर पुरस्कार के लिए छह लेखक दावेदार थे। इनमें केन्या में जन्मी चेतना मारू भी शामिल हैं। मारू का उपन्यास वेस्टर्न लेन ब्रिटिश गुजराती परिवेश पर आधारित है। बुकर पुरस्कार चयन समिति ने वेस्टर्न लेन ब्रिटिश में जटिल मानवीय भावनाओं के रूपक के तौर पर स्वयंश के खेल के उपयोग के लिए प्रशंसा की।

चल रहे युद्ध के बीच इजरायल ने की एलन मस्क की मेजबानी, गाजा को स्टारलिनिक की सेवा देने पर रखी पैनी नजर

रायटर्स, यरूशलेम

इजरायल और हमास के बीच युद्ध जारी है। हालांकि अभी युद्ध सौदे के अनुरूप जंग में चार दिनों का विराम लगा हुआ है। इस बीच टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने इजरायल की यात्रा की है। इजरायल ने सोमवार को एलन मस्क की मेजबानी करते हुए कहा कि वह गाजा पट्टी में उनकी स्पेसएक्स कंपनी के स्टारलिनिक संचार का उपयोग करने के लिए सैद्धांतिक रूप से एक समझौते पर पहुंच गया है। वहीं मस्क के इस यात्रा के साथ हमास के खिलाफ युद्ध को विराम दिया गया है। मस्क के कार्यालय ने अभी तक यात्रा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक रजोव ने मस्क के साथ दोपहर की बैठक निर्धारित की है।

हजोग के कार्यालय ने कहा कि उनके साथ गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों के रिश्तेदार भी शामिल होंगे और "ऑनलाइन बढ़ती यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता" पर भी चर्चा करेंगे। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा करने और एक लाइव ऑनलाइन चर्चा करने के लिए सोमवार को मस्क से मिलने वाले हैं।

मस्क ने गाजा के लिए स्टारलिनिक के यूज का रखा था प्रस्ताव
प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर यहूदी विरोधी भावना को लेकर हफ्तों तक चले विवाद के बाद मस्क से स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा करने और नफरत भरे भाषण से लड़ने के बीच संतुलन बनाने का आग्रह किया था। पिछले महीने जब दक्षिणी इजरायल में हमास द्वारा किए जा रहे हत्या और अपहरण के बाद युद्ध छिड़ गया था। उस वक्त मस्क ने "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सहायता संगठनों" के साथ ब्लैकआउट प्रभावित गाजा एन्क्लेव में संचार लिंक का समर्थन करने के लिए स्टारलिनिक का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा था। उस समय, इजरायली कम्युनिकेशंस क्षोभो करही ने आपत्ति जताते हुए कहा, "हमास इसका (स्टारलिनिक) आतंकवादी गतिविधियों के लिए उपयोग करेगा"।

रावलपिंडी (पाकिस्तान) पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के दक्षिण वजीरिस्तान जिले में खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में आठ आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने यह जानकारी दी। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज ने आईएसपीआर के रिवार को जारी बयान के हवाले से कहा है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इस जिले के सारारोधा इलाके में अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इसमें आठ आतंकवादी मारे गए।

अखंड भारत संदेश
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक
स्वामी श्री योगी सत्यम् फौंड
योग सत्संग समिति
द्वारा विपिन इण्टरप्राइजेज
1/6C माधव कुंज
कटरा प्रयागराज से मुद्रित
एवं
क्रियायोग आश्रम एण्ड अनुसंधान संस्थान
झूसी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश
से प्रकाशित।
सम्पादक
स्वामी श्री योगी सत्यम्
RNI No: UPHIN/2001/09025
ऑफिस मो.:
9565333000
Email:-
akhandbharsatsandesh1@gmail.com
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र
प्रयागराज होगा।

चीन में क्यों बढ़ रही सांस की बीमारी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताई इसके पीछे की असली वजह...

बीजिंग/एजेंसी।

चीन में रहस्यमयी बीमारी के बाद अस्पताल में बच्चों की लंबी कतार के बीच वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी को फ्लू और अन्य ज्ञात रोगजनकों के कारण होना बताया है। मंत्रालय ने देश में नए वायरस की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। चीन में लगातार सांस की बीमारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) भी चिंता जता चुका है।

मंत्रालय ने कहा कि देश में बच्चों में तेजी से बढ़ रहा सांस की बीमारी आम वायरस के कारण है। मंत्रालय के प्रवक्ता मी फेंग ने कहा कि यह बीमारी इन्फ्लूएंजा वायरस, राइनोवायरस, रेस्पिरेंटरी सिंकाइटियल वायरस, एडिनोवायरस के साथ-साथ माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे बैक्टीरिया के कारण है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में लोगों की संख्या को देखते हुए क्लीनिकों और उपचार क्षेत्रों को खोलने, सेवा के घंटे बढ़ाने और दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास



किए जा रहे हैं। देश में सांस संबंधी बीमारी बढ़ने को लेकर मंत्रालय ने लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्थानीय अधिकारियों से स्कूलों और नर्सिंग होम जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बीमारियों को फैलने से रोकने पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया है। मालूम हो कि चीनी अधिकारियों ने इस माह की शुरुआत में सांस संबंधी बीमारियों में वृद्धि के लिए कोरोना लॉकडाउन प्रतिबंध हटाने को जिम्मेदार ठहराया था। मालूम हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों में अज्ञात निमोनिया के समूहों पर प्रोग्राम फॉर मॉनिटरिंग इमर्जिंग डिजीज की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए चीन से अधिक जानकारी मांगी थी। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि चीन ने उसके अनुरोध का जवाब दिया है और उसके द्वारा प्रदान किए गए डेटा से पता चलता है कि मामले माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे ज्ञात रोगजनकों के प्रसार के साथ-साथ कोविड प्रतिबंधों को हटाने से जुड़े थे।

रूस ने नाकाम किया यूक्रेन के 24 ड्रोन का हमला, उड़ानें प्रभावित

कीव,

रूस ने यूक्रेन की ओर से रिवार को भेजे 24 ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन ने रूस के पांच क्षेत्रों मास्को, तुला, कलुगा, स्मोलेंस्क और ब्रांस्क क्षेत्र में ड्रोन को हमले के लिए भेजा था। तुला में ड्रोन ने एक इमारत को निशाना बनाया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। यूक्रेन की ओर से रात भर हमला जारी रहा। जानकारी के मुताबिक ड्रोन हमले के चलते मास्को के मुख्य हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी हुई या रद्द कर दिया गया। इसे शनिवार को रूस की ओर से किए गए हमले का जवाब माना जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में शनिवार को रूस की ओर से 75 ड्रोन से हमला



बोला गया था। अधिकारियों का कहना था कि यह अब तक का रूस की ओर से सबसे बड़ा ड्रोन हमला था। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय

ने कहा कि हमले के कारण राजधानी में 77 आवासीय सहित लगभग 200 इमारतों की बिजली चली गई। इस दौरान पांच लोग घायल भी हुए। घायलों में 11 वर्षीय बच्ची भी शामिल थी। यह हमला उस दिन किया गया, जब यूक्रेन 1932-33 के होलोडोमोर अकाल को याद कर रहा था। होलोडोमोर का मतलब है भूख से मारना। इस दौरान लाखों यूक्रेनियों की मौत हुई थी। शनिवार सुबह के समय किया गया हमला सुरज चढ़ने के साथ ही बढ़ता गया। विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि सप्ताह के दौरान रूस ने देश भर में 911 हमले किए हैं, जिसमें 19 यूक्रेनी मारे गए और 84 घायल हुए हैं।

इजराइली कारोबारी के जहाज पर अदन बंदरगाह के पास हमला, चालक दल के 22 सदस्यों में भारतीय भी, सभी सुरक्षित

अदन (यमन)

यमन के अदन बंदरगाह के पास इजराइल विरोधी कथित रूप से हथी विद्रोहियों के निशाने पर आए जहाज सेंट्रल पार्क के चालक दल के सभी 22 सदस्य सुरक्षित हैं। चालक दल के सदस्यों में भारत, बुल्गारिया, जॉर्जिया, फिलीपींस, रूस, तुर्किये और वियतनाम के नागरिक शामिल हैं। यह जहाज इजराइली कारोबारी इयाल ऑफर के स्वामित्व वाली कंपनी जोडैक का है। इजराइल के अखबार द टाइम्स



ऑफ इजराइल के अनुसार कंपनी ने कहा है कि फॉस्फोरिक एसिड ले जाने वाले सेंट्रल पार्क जहाज पर हुए हमले के बाद चालक दल के सभी सदस्य सकुशल हैं। कंपनी ने यह विवरण नहीं दिया है कि हमलावरों के साथ क्या हुआ। बस इतना कहा है कि जहाज और उसके चालक दल के सदस्य वर्तमान में सुरक्षित हैं। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को एक ईरानी ड्रोन ने हिंद महासागर में इजराइली स्वामित्व वाले वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया था।

नेपाल के भूकंप प्रभावित इलाके में ठंड से मरने वालों की संख्या 15 हुई



काठमांडू

मौसम का पारा गिरने के साथ ही नेपाल के भूकंप प्रभावित इलाकों जाजरकोट और रूकुम पश्चिम में खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। महज एक तिरपाल के सहारे रह रहे इन भूकंप पीड़ितों को रात गुजारना और अधिक मुश्किल होता जा रहा है। ठंड के कारण इन दोनों जिलों में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। मरने वालों में अधिकतर बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं हैं। बुजुर्गों की ठंड के कारण निमोनिया से मौत हो रही है जबकि अन्य लोगों में कई दूसरी बीमारियां मौत का कारण बन रही हैं। बीती रात ठंड के कारण ही नलगाड नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 निवासी एक गर्भवती महिला शर्मिला चादर की मौत होने जानकारी वार्ड अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह ने दी है। इसी तरह रिवार सुबह एक नवजात शिशु मृत पाया गया। भेरी नगरपालिका के वार्ड नम्बर 2 में भूकंप पीड़ितों के लिए बनाए गए आश्रय स्थल में एक महीने की नवजात निरुत्ता पुन की ठंड से ठितुरकर मौत हो गई। 3 नवम्बर को जाजरकोट को केन्द्र विन्दु बनाकर आए 6.4 की तीव्रता के भूकंप के बाद बेचर हुए लोगों की मौत लगातार ठंड के कारण हो रही है। जाजरकोट और रूकुम पश्चिम दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं, जहां सितम्बर - अक्टूबर से ही कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती है। इस समय दोनों जिलों के ऊपरी हिस्से में तो बर्फबारी भी शुरू हो गई है। इसके कारण वहां का तापमान रात को 5 - 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठंड के कारण भूकम्प पीड़ितों की कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने क्रिस्टोफर लक्सन; दो छोटी पार्टियों के साथ किया समझौता

एपी, वेलिंगटन:

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने सोमवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ लेने के बाद पीएम लक्सन ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूर्व व्यवसायी लक्सन न्यूजीलैंड में कंजरवेटिव गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं।



पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा में आठ आतंकी मारे



आईएसपीआर के मुताबिक, मारे गए आतंकवादी सुरक्षा बलों और निर्दोष लोगों के खिलाफ कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। मुठभेड़ स्थल से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। जियो न्यूज के अनुसार पिछले हफ्ते, उत्तरी वजीरिस्तान जिले के रजमक इलाके में सुरक्षा बलों के एक काफिले के पास एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईडीडी) विस्फोट होने से दो सैनिक शहीद हो गए थे। शहीद जवानों की पहचान करक जिले के निवासी 33 वर्षीय लांस नायक पहसान बादशाह और कुर्रम जिले के निवासी 30 वर्षीय लांस नायक साजिद हुसैन के रूप में हुई थी।

हिन्दुस्थान समाचार/मुकुंद